



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19—जनवरी 25, 2013 (पौष 29, 1934)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19—JANUARY 25, 2013 (PAUSA 29, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उपराष्ट्रपति सचिवालय

दिनांक 31 दिसम्बर 2012

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. 03/04/2012-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री जी.एस. पटनायक, आई. ए.एस. (ए.जी.एम.यू : 1980) को उपराष्ट्रपति के सचिव के पद पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अशोक दीवान, निदेशक

सं. आरएस/3/6/1/2012/122-कार्मिक-- राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत मुद्रण अधिकारी श्रीमती अमृत पाल को 22 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक (मुद्रण और प्रकाशन) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

राज्य सभा सचिवालय

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. आरएस/19/3/2008/105-कार्मिक--राज्य सभा के महासचिव ने नाम-निर्देशित काउन्सेल के रूप में अधिवक्ता श्रीमती जुबेदा बेगम के कार्यकाल को, उनके द्वारा सम्यक रूप से स्वीकृत संशोधित निबंधन और शर्तों पर, 15 सितम्बर, 2012 से राज्य सभा सचिवालय से संबंधित सभी नोटिस प्राप्त करने तथा दिल्ली उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में सचिवालय से संबंधित सभी मामलों में उसकी ओर से प्रतिवाद करने हेतु एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस/3/6/1/2012/123-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ मुद्रण सहायक श्री परवेज़ हुसैन को 07 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में स्व-स्थाने आधार पर मुद्रण अधिकारी के ग्रेड में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति दिनांक 26 नवम्बर, 2009 के आर एण्ड सी.एस. आदेश सं. 5/2009 द्वारा अधिसूचित स्व-स्थाने प्रोन्नति योजना में अन्तर्विष्ट उपबंधों द्वारा अधिशसित होंगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 1 जनवरी 2013

सं. आरएस.20/1/2013/1-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री मोम राज सिंह, निदेशक, 31 दिसम्बर, 2012 के अपराह से सेवा निवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस.20/1/2013/2-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री विनोद कुमार भंडारी, सहायक निदेशक, 31 दिसम्बर, 2012 के अपराह से सेवा निवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 जनवरी 2013

सं. ए-19011/1/2013-(प्रशासन)--राष्ट्रपति, श्री नेहचल सन्धु, भारतीय पुलिस सेवा (बिहार : 73) को भारत सरकार के सचिव के रैंक व वेतनमान में दिनांक 01 जनवरी, 2013 के पूर्वाह से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (एन.एस.सी.एस.) में अगले 03 साल के लिए उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं सचिव, के पद पर नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन एवं संविदा आधार पर प्रारम्भ में वर्तमान पदधारी सुश्री विजया लता रेड्डी, भारतीय विदेश सेवा (75) की अवधि समाप्त होने तक अर्थात् 20 मार्च, 2013 के अपराह तक विशेष कार्याधिकारी के रूप में और उसके बाद उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं सचिव के रूप में होगी।

आर. के. जैन, अवर सचिव

सं. ए-41012/1/2012-(प्रशासन)--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में श्री जी. मुरलीधरन पिल्लै को वेतन बैंड-4 के वेतनमान 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड वेतन 8,700/- रु. में 62 साल की आयु पूरी करने तक, जो कि 01 दिसम्बर, 2014 (जन्म तिथि : 02 दिसम्बर, 1952) तक या अगले आदेशों के जारी होने तक जो भी पहले हो, पुनर्नियोजन एवं संविदा आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2013 के पूर्वाह से निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. के. जैन, अवर सचिव

योजना आयोग

(भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. ए-19011/87/2012-यूआईडीएआई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली, के दिनांक 10.12.2012 के पत्र

सं. ए-12013/21/(डीडी/मुख्यालय)/11-यूआईडीएआई और श्रम और रोजगार मंत्रालय के दिनांक 28.12.2012 के कार्यालय आदेश सं. डीजीई एण्ड टी ए-19015/02/2006-प्रशा.II के अनुसरण में श्री राजेश कुमार ने दिनांक 28.12.2012 (अपराह) से मुख्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, दिल्ली में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप-निदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरूण कुमार सरकार, उप-निदेशक (स्थापना)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

सं. ए-32012/02/2012-प्रशा.1 (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में श्री बी.एल. चौधरी, अपर विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-II) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक वेतन बैंड-4 (रु. 37,400--67000/-) में रु. 10,000/- ग्रेड वेतन सहित तदर्थ आधार पर संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार के ग्रेड (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-I) में नियुक्त करते हैं।

रवीन्द्र कुमार, उप सचिव

सं. ए-32012/02/2012-प्रशा.1 (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के निम्नलिखित अपर विधि सलाहकारों (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-II) को दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक वेतन बैंड-4 (रु. 37,400--67000/-) में रु. 10,000/- ग्रेड वेतन सहित तदर्थ आधार पर संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार के ग्रेड (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-I) में नियुक्त करते हैं :-

1. श्री एच.पी. चतुर्वेदी
2. श्री रामायण यादव और
3. श्री इन्द्र कुमार

2. वे दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह से दो वर्ष की अवधि तक परीवीक्षाधीन रहेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो उनकी परीवीक्षा की अवधि को सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। उनका ग्रेड में बने रहना, परीवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन और संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार के ग्रेड में रिक्ति की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

रवीन्द्र कुमार, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

सं. के. 13025/05/2012-यूएस-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबडे को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, उनके कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के. 11017/10/2012-यूएस-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात्, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति लक्ष्मी कान्त महापात्र का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में करते हैं और उन्हें दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 अथवा इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 9 अक्टूबर 2012

सं. के. 11019/03/2012-यूएस-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे को दिनांक 10 अक्टूबर 2012 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय का दायित्व निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 6 नवम्बर 2012

सं. के. 13017/03/2012-यूएस-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री गुरिजाला क्रिश्ना मोहन रेड्डी और न्यायविद् श्री कोल्ला सूर्या अप्पा राव को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 7 नवम्बर 2012

सं. के. 13026/02/2012-यूएस-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

मद्रास उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् कुमारी आर. माला, (ii) न्यायविद् श्रीमती अरूणा जगदीशन, (iii) न्यायविद् श्री जी. एम. अकबर अली, को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के. 13029/02/2012-यूएस-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री विजेन्द्र सिंह मलिक को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2012

सं. के. 13013/06/2012-यूएस-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति प्रिनाकी चन्द्र घोष को उस तारीख, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, से आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 20 दिसम्बर 2012

सं. के. 13029/07/2012-यू. एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमोल रतन सिंह को उस तारीख, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के. 13014/02/2012-यू. एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव-II, (2) श्री भारत भूषण, न्यायिक अधिकारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए और (4) श्री जकी उल्लाह खॉ को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 04.08.2014 तक की अवधि के लिए उसी वरीयता क्रम में उस तारीख, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

सं. के-13011/06/2012-यू. एस.-II(iii)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति विक्रमाजीत सैन को उस तारीख से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

सं. के-13011/06/2012-यू. एस.-II(ii)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वेंकटगौडा गोपालागौडा को उस तारीख से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

सं. के-13011/06/2012-यू. एस.-II(i)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति मो. युसुफ एकबाल को उस तारीख से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

सं. 14016/13/2011-यू.टी.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एच. राजेश प्रसाद, आई ए एस (ए जे एम यू : 1995) को दिनांक 07 नवम्बर, 2012 से आगामी आदेशों तक, संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. जैन, निदेशक (सेवाएं)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. आई-18011/14/2012-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ध्रुवज्योती डे, भा. पु. से. (पश्चिम बंगाल : 2006) को दिनांक 18.12.2008 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

प्रशान्त निकम, निदेशक (पुलिस)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. आई-14011/54/2012-आई.पी.एस.-1--राष्ट्रपति, श्री हुकुम सिंह बनाम भारत संघ व अन्य के द्वारा दायर ओ.ए. संख्या 348/एचआर/2012 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चंडीगढ़ खण्ड पीठ के दिनांक 23.08.2012 के आदेश के अनुसरण में और भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वर्ष 2006 की चयन सूची में सम्मिलित राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी श्री हुकुम सिंह की नियुक्ति को अधिसूचित करते हुये दिनांक 17.10.2012 को जारी पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या आई-14011/54/2012-आई.पी.एस.-1 के आंशिक संशोधन में, हरियाणा की राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी श्री हुकुम सिंह (जन्म तिथि 02.06.1953) को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत हरियाणा संवर्ग प्रदान करते हैं।

2. यह नियुक्ति उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री वेद प्रकाश जो कि 2006 से 2010 की वर्षवार चयन सूचियों में से 2009 की चयन सूची से नियुक्त हुये हैं, उनकी नियुक्ति तिथि जो कि 29.03.2012 है, से प्रभावी होगी।

3. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के दिशानिर्देशों के आलोक में, वर्ष 2006 की चयन सूची के लिये जारी अधिसूचना संख्या आई-14011/54/2012-आई.पी.एस.-1 दिनांक 17.10.2012, उपर्युक्त सीमा तक संशोधित मानी जाएगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. 12/89/2012-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, सुश्री के. दमयन्ती, आई. ए. एस. (एपी : 93) को दिनांक 28.12.2012 (पूर्वाह्न) से उनकी पाँच वर्ष की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यावधि की शेष अवधि के लिए अर्थात् 02.10.2016 तक या अगले आदेश के आने तक, जो भी पहले हो, 37,400--67,000/- (पीबी-4) + ग्रेड पे 10,000/- रुपए के वेतनमान पर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

देबाशीष डे, अवर सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2013

सं. 12/93/2012-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री एस. के. भट्टाचार्य को दिनांक 01.01.2013 (पूर्वाह्न) से 31.05.2013 तक या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव, सीएसएस के पद पर नियुक्त करते हैं।

देबाशीष डे, अवर सचिव

सं. 12/92/2012-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री आर. एस. इंदौरा को दिनांक 01.01.2013 (पूर्वाह्न) से 31.05.2013 तक या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव, सीएसएस के पद पर नियुक्त करते हैं।

देवाशीष डे, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

सं. ए-23021/02/2008-संवग--राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री ए. वाई. आनन्द राज को चयन सूची वर्ष 2011 के लिए जोनिंग स्कीम के अन्तर्गत, प्रोफार्मा पदोन्नति आधार पर वेतन बैंड 15,600--39,100/- रुपए जमा ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए में दिनांक 16.11.2012 (पूर्वाह्न) अर्थात् उस ग्रेड में उनके आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तारीख से प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

विजय कौशिक, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. 14015/19/2012-अ.भा.से.(I)-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 1993-94, 1994-95 की समीक्षा प्रवर सूचियों (श्री एम. एल. गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर ओ.ए. सं. 391/2003 में श्री एच. सी. शर्मा, ए. के. भण्डारी एवं जगदीश चन्द्रा के मामले में माननीय अधिकरण के समान दिशा-निर्देशों के साथ पठित, माननीय कैट, जयपुर पीठ के दिनांक 02.11.2007 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में) एवं 1996-97, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 एवं 2011 की वर्षवार चयन सूची की तैयारी के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को तैयार की गई तथा विनियम 7 (2) के अंतर्गत 31.12.2012 को अनुमोदित की गई राजस्थान के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :--

वर्ष 1993-94 की चयन सूची का पुनर्विलोकन

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
1	2	3
(सर्वश्री)		
1.	जयंती लाल मोदी	27.12.1947
2.	करणी सिंह राठौड़	01.01.1949

1	2	3
3.	एस. एस. भण्डारी	20.08.1936
4.	प्रेम दत्त पालीवाल	02.07.1938
5.	पुखराज सालेचा	10.08.1939
6.	डालू राम मीणा (अ.ज.जा.)	15.08.1941
7.	केसरी सिंह	01.07.1939
8.	मूल चन्द आर्य (अ.जा.)	10.03.1942
9.	के. पी. सिंहल	01.01.1942
10.	के. सी. गुप्ता	20.09.1943
11.	जे. पी. चन्देलिया (अ.जा.)	13.03.1951
12.	आर. एन. अरविन्द	03.05.1947
13.	के. एन. गुप्ता	01.07.1947
14.	एम. एस. खान	27.11.1947
15.	महेन्द्र कुमार सुराणा	05.05.1948
16.	के. के. सबीकी	10.07.1941
17.	सुभाष भार्गव	06.10.1947
18.	के. डी. खान	19.06.1938
19.	बाबू लाल जैमन	01.01.1948
20.	जे. पी. शर्मा	03.06.1946
21.	देवी राम जोधावत (अ.जा.)	24.04.1946
22.	याद राम गौड़ (अ.जा.)	17.03.1947
23.	जगदीश प्रसाद (अ.जा.)	05.06.1946
24.	अमर चन्द भट्ट (अ.जा.)	10.08.1946
25.	जगदीश चन्द	15.04.1950

वर्ष 1994-95 की चयन सूची का पुनर्विलोकन

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
1	2	3
(सुश्री/श्री)		
1.	एस. एस. त्रिपाठी	08.05.1941
2.	गोरधन लाल शर्मा	17.06.1940
3.	हरीश कृष्णियां	28.03.1941
4.	सूरज मल मीणा (अ.ज.जा.)	20.08.1951
5.	हरि कृष्ण डामोर (अ.ज.जा.)	28.07.1948

1	2	3
6.	एस. आर. प्रतिहार (अ.ज.जा.)	02.04.1947
7.	रमेश कुमार जैन	12.12.1952
8.	हरीश चन्द्र शर्मा	02.10.1945
9.	कुलदीप शर्मा	23.12.1950
10.	रामरख	09.04.1947
11.	महावीर सिंह	05.07.1951
12.	आनन्द कुमार हेमकार	05.06.1947
13.	आर. एस. गठाला	11.06.1948
14.	तारा चन्द	17.10.1947
15.	राजेन्द्र भानावत	15.09.1952
16.	कालू राम कमलेश (अ.ज.जा.)	02.11.1942
17.	अरूण कुमार ओझा	30.05.1944
18.	रमेश चन्द जैन	03.10.1946
19.	चन्द्र प्रकाश व्यास	03.03.1949
वर्ष 1995-96 की चयन सूची		
1.	राज बहादुर सिंह	08.07.1943
2.	अमर सिंह	24.04.1942
वर्ष 1996-97 की चयन सूची		
1.	राज बहादुर सिंह	08.07.1943
2.	अमर सिंह	24.04.1942
3.	मदन लाल जैन	04.07.1945
4.	आर. एस. अग्रवाल	07.11.1949
5.	चन्द्र भूषण शर्मा	25.08.1949
6.	डी. के. विजय	22.08.1948
7.	नरिंगा राम यादव (अ.जा.)	12.02.1950
8.	राम प्रसाद (अ.जा.)	15.06.1947
9.	राम निवास मीणा (अ.ज.जा.)	17.03.1951

वर्ष 1997 की चयन सूची		
क्रं. सं.	नाम	जन्मतिथि
	(सुश्री/श्री)	
1.	बी. एस. चारण	31.07.1950
2.	एन. के. जैन	29.12.1950
3.	एन. एन. चतुर्वेदी	05.09.1945
4.	अमर चन्द शर्मा	15.03.1947
5.	राम खिलाड़ी मीणा (अ.ज.जा.)	01.10.1954
6.	श्रीराम मीणा (अ.ज.जा.)	11.10.1953
7.	लक्ष्मी बैरवा (अ.जा.)	09.08.1952
8.	लाल चन्द असवाल (अ.जा.)	15.09.1954
9.	एच. पी. बरवड़ (अ.जा.)	20.01.1947

वर्ष 1998 की चयन सूची		
1.	ए. के. भण्डारी	05.06.1954
2.	प्रमिला सुराणा	09.07.1953
3.	मोती लाल गुप्ता	05.07.1948
4.	के. के. गुप्ता	02.02.1952

वर्ष 1999 की चयन सूची		
1.	मन्मथ कुमार	15.04.1950
2.	जुगल किशोर बंसल	15.12.1949
3.	श्रीमती हंसा सिंह देव (अ.ज.जा.)	08.04.1957
4.	गजेन्द्र सिंह (अ.ज.जा.)	22.09.1950
5.	आशुतोष गुप्ता	19.07.1947

वर्ष 2000 की चयन सूची		
	बद्री लाल मीणा	18.06.1947

वर्ष 2001 की चयन सूची		
1.	आर. बी. परमार	03.02.1950
2.	सी. आर. चौधरी	01.03.1948
3.	के. जी. अग्रवाल	01.07.1949
4.	सी. एम. खत्री	15.07.1949

वर्ष 2003 की चयन सूची

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
	(सुश्री/श्री)	
1.	हेमन्त शेष	18.12.1952
2.	गिरधारी लाल गुप्ता	23.12.1952
3.	सुनील धारीवाल	01.07.1954

वर्ष 2005 की चयन सूची

1.	धर्मेन्द्र भटनागर	30.09.1955
2.	जी. डी. आर्य (अ.जा.)	13.07.1952
3.	हनुमान सिंह भाटी	09.01.1956

वर्ष 2006 की चयन सूची

1.	डूंगर दान चारण	12.03.1952
2.	महावीर प्रसाद स्वामी	01.06.1956
3.	श्रीमती राजेश यादव	19.08.1956

वर्ष 2007 की चयन सूची

1.	ऐ. के. सांवरिया (अ.जा.)	19.02.1956
2.	धूदा राम मीणा (अ.ज.जा.)	10.04.1954
3.	अजय सिंह	01.07.1956
4.	एम. एस. काला (अ.जा.)	08.01.1959
5.	मांगी लाल खींची (अ.जा.)	01.10.1953
6.	श्रीराम चौरडिया (अ.जा.)	07.07.1953
7.	सुवा लाल (अ.जा.)	05.08.1957
8.	हनुमान सहाय मीणा (अ.ज.जा.)	14.01.1960
9.	रघुवीर सिंह मीणा (अ.ज.जा.)	05.05.1957
10.	बी. एल. नवल (अ.जा.)	07.09.1955
11.	नारायण लाल मीणा (अ.ज.जा.)	26.01.1962
12.	वेद प्रकाश (अ.जा.)	31.05.1957

वर्ष 2008 की चयन सूची

1.	सुमती लाल बोहरा	14.11.1954
2.	मूलचन्द मीणा (अ.ज.जा.)	08.07.1954
3.	अनिल कुमार चपलोट	29.04.1956
4.	विनोद अजमेरा	23.11.1956
5.	हनुमन्त सिंह भाटी	20.09.1957

वर्ष 2009 की चयन सूची

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
	(सुश्री/श्री)	
1.	निवेदिता मेहरू	16.07.1958
2.	श्रवण साहनी	06.06.1955

वर्ष 2010 की चयन सूची

1.	बसंत कुमार दोषी	15.06.1957
2.	ओम प्रकाश यादव	11.02.1958
3.	ललित कुमार गुप्ता	13.03.1959
4.	मधु सूदन शर्मा	24.03.1956
5.	रतन लाल लोहाटी	11.11.1957
6.	एस. एस. पंवार (अ.जा.)	12.04.1956
7.	जे. सी. देसाई (अ.जा.)	02.02.1958
8.	राम निवास (अ.जा.)	16.08.1957
9.	बी. एल. जाटवत (अ.जा.)	07.10.1957
10.	पी. आर. पण्डित (अ.जा.)	01.01.1959
11.	एस. पी. बसवाल (अ.जा.)	30.11.1956
12.	के. सी. वर्मा (अ.जा.)	05.12.1960

वर्ष 2011 की चयन सूची

1.	एस. एस. सोहता (अ.जा.)	12.02.1959
2.	विक्रम सिंह चौहान	27.08.1957
3.	रेखा गुप्ता	28.09.1959

2. यह अधिसूचना श्री भंवर लाल कन्दोई एवं अन्य द्वारा भारत सेवा एवं अन्य द्वारा माननीय कैट, जयपुर पीठ के समक्ष दायर और स. 810/2012 के निर्णय के अधधीन होगी।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/19/2012-अ.भा.से. (I)-ख--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समीक्षा प्रवर सूची वर्ष 1994-95 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए राजस्थान राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य जो पहले हो भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हैं और जिनको राजस्थान संवर्ग आबंटित है, की नियुक्ति को पुनः अधिसूचित करते हैं :--

प्रवर सूची 1994-95

नाम	पदस्थापन दिनांक
श्री रमेश कुमार जैन	03.12.1999

2. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 1997, 1998, 1999, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 एवं 2011 की वर्षवार प्रवर सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए राजस्थान राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सिविल सदस्यों को परीक्षा पर अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत राजस्थान संवर्ग आबंटित करते हैं :--

वर्ष 1997 की चयन सूची

क्र.सं.	नाम
	(सुश्री/श्री)
1.	राम खिलाड़ी मीणा (अ.ज.जा.)
2.	श्रीराम मीणा (अ.ज.जा.)
3.	लाल चन्द असवाल (अ.ज.)

वर्ष 1998 की चयन सूची

1.	ए. के. भण्डारी
2.	प्रमिला सुराणा

वर्ष 1999 की चयन सूची

श्रीमती हंसा सिंह देव (अ.ज.जा.)

वर्ष 2003 की चयन सूची

1.	हेमन्त शेष
2.	गिरधारी लाल गुप्ता
3.	सुनील धारीवाल

वर्ष 2005 की चयन सूची

1.	धर्मेन्द्र भटनागर
2.	हनुमान सिंह भाटी

वर्ष 2006 की चयन सूची

1.	महावीर प्रसाद स्वामी
2.	श्रीमती राजेश यादव

वर्ष 2007 की चयन सूची

1.	ऐ. के. सांवरिया (अ.जा.)
2.	धूदा राम मीणा (अ.ज.जा.)
3.	अजय सिंह

क्र.सं.	नाम
---------	-----

(सुश्री/श्री)

4. एम. एस. काला (अ.जा.)
5. मांगी लाल खींची (अ.जा.)
6. श्रीराम चौरड़िया (अ.जा.)
7. सुवा लाल (अ.जा.)
8. हनुमान सहाय मीणा (अ.ज.जा.)
9. रघुवीर सिंह मीणा (अ.ज.जा.)
10. बी. एल. नवल (अ.जा.)
11. नारायण लाल मीणा (अ.ज.जा.)
12. वेद प्रकाश (अ.जा.)

वर्ष 2008 की चयन सूची

1. सुमती लाल बोरा
2. मूल चन्द मीणा (अ.ज.जा.)
3. अनिल कुमार चपलोत
4. विनोद अजमेरा
5. हनुमन्त सिंह भाटी

वर्ष 2009 की चयन सूची

1. निवेदिता मेहरू
2. श्रवण साहनी

वर्ष 2010 की चयन सूची

1. बसन्त कुमार दोषी
2. ओम प्रकाश यादव
3. ललित कुमार गुप्ता
4. मधु सूदन शर्मा
5. रतन लाल लोहाटी
6. एस. एस. पंवार (अ.जा.)
7. जे. सी. देसाई (अ.जा.)
8. राम निवास (अ.जा.)
9. बी. एल. जटवत (अ.जा.)
10. पी. आर. पण्डत (अ.जा.)
11. एस. पी. बसवाल (अ.जा.)
12. के. सी. वर्मा (अ.जा.)

वर्ष 2011 की चयन सूची

क्र.सं.	नाम
	(सुश्री/श्री)
1.	एस. एस. सोहता (अ.जा.)
2.	विक्रम सिंह चौहान
3.	रेखा गुप्ता

3. यह अधिसूचना श्री भंवर लाल कन्दोई एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा माननीय कैट, जयपुर पीठ के समक्ष दायर ओ.ए. सं. 810/2012 के निर्णय के अध्वधीन होगी।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/24/2012-अ.भा.से. (I)-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2011 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 21 सितम्बर, 2012 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत 24.12.2012 को अनुमोदित की गई पश्चिम बंगाल के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :--

प्रवर सूची, 2011 (1.1.2011 से 31.12.2011 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	सुमित हलदर	19.11.1957
2.	स्वप्न कुमार दास	27.06.1959
3.	मृगांक शेखर कर	05.12.1958
4.	श्रीमती रूनु घोष	04.08.1959
5.	प्रीतिश सीएच. सरकार (अ.जा.)	11.12.1959
6.	तपन कांति गांगुली	19.06.1959
7.	नित्यानंद मण्डल (अ.जा.)	01.11.1960
8.	श्रीमती पृथा सरकार	24.11.1962

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/24/2012-अ.भा.से. (I)-ख--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा), नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2011 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उन्हें पश्चिम बंगाल संवर्ग आबंधित करते हैं :--

प्रवर सूची, 2011 (01.01.2011 से 31.12.2011) के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
	(सर्वश्री)
1.	सुमित हलदर
2.	स्वप्न कुमार दास
3.	मृगांक शेखर कर
4.	श्रीमती रूनु घोष
5.	प्रीतिश सीएच. सरकार (अ.जा.)
6.	तपन कांति गांगुली
7.	नित्यानंद मण्डल (अ.जा.)
8.	श्रीमती पृथा सरकार

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/21/2012-अ.भा.से.-I-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2011 (01.01.2011 से 31.12.2011 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए) के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु संवर्ग की पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 26.09.2012 को तैयार और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 17.12.2012 को अनुमोदित की गई तमिलनाडु के राज्य सिविल सेवा

अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :--

प्रवर सूची-2011

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री/सुश्री)	
1.	श्रीमती जी. लता	10.09.1971
2.	श्रीमती ई. सुन्दरावल्ली	03.05.1973
3.	ई. श्रवणवेलराज	26.12.1966
4.	डॉ. एन. सुब्बैयन (अ.जा.)	09.05.1973
5.	वी. दक्षिणामूर्ति	12.05.1967

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/21/2012-अ.भा.से.-I-ख--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2011 के लिए (01.01.2011 से 31.12.2011 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए) राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए तमिलनाडु राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को अगले आदेश तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत तमिलनाडु संवर्ग में आर्बंटित करते हैं :--

प्रवर सूची-2011

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
1	2
	(सर्वश्री/सुश्री)
1.	श्रीमती जी. लता
2.	श्रीमती ई. सुन्दरावल्ली
3.	ई. श्रवणवेलराज
4.	डॉ. एन. सुब्बैयन (अ. जा.)
5.	वी. दक्षिणामूर्ति

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/01/2012-अ.भा.से.-(I)-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2010 और 2011 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित

राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंध्र प्रदेश संवर्ग में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 05 नवम्बर 2012 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 21.12.2012 को अनुमोदित की गई आंध्र प्रदेश के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :--

प्रवर सूची 2010 (01.10.2010 से 31.12.2010 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.*	डी वेंकटेश्वर राव (अ.ज.जा.)	24.12.1961
2.	एम. रामा राव (अ.ज.जा.)	11.06.1960
3.	एम चम्पालाल (अ.ज.जा.)	27.08.1962
4.	के. शारदा देवी (अ.ज.जा.)	15.07.1965

*क्रम संख्या 1 पर दर्शाए गए अधिकारी का नाम सूची में अंतरिम रूप से शामिल किया गया है जो राज्य सरकार से सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के अध्यधीन है।

प्रवर सूची 2011 (01.01.2011 से 31.12.2011 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
0ए#*	डी वेंकटेश्वर राव (अ.ज.जा.)	24.12.1961
1.	श्रीमती बी. भारती लक्ष्मि नायक (अ.ज.जा.)	12.07.1966
2.	जे. मुरली	05.08.1959
3.	सी. एच. श्रीधर (अ.ज.जा.)	08.02.1969
4.	एम. वी. शेषगिरि बाबू	14.10.1970
5.	बी. विजेन्द्र (अ. जा.)	07.07.1971
6.	डी. मुरलीधर रेड्डी	01.07.1969
7.	बी. लक्ष्मी कांतम	01.07.1959
8.	के. कन्ना बाबू	05.06.1967
9.	एस. सत्यनाराण	01.07.1965
10.	के. वाई. नायक (अ.ज.जा.)	04.03.1962
11.	पी. वेंकट रामी रेड्डी	21.09.1962
12.	के. सुरेन्द्र मोहन	26.07.1970

#क्रम संख्या 0ए पर दर्शाए गए अधिकारी का नाम पदोन्नति विनियमावली के विनियम 5(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार विचारण के सामान्य क्षेत्र के अलावा प्रवर सूची में शामिल किया गया है।

*क्रम संख्या 0ए पर दर्शाए गए अधिकारी का नाम सूची में अंतरिम रूप में शामिल किया गया है जो राज्य सरकार से सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के अध्यधीन है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/01/2012-अ.भा.से.-(I)-ख--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2010 और 2011 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उन्हें आंध्र प्रदेश संवर्ग आबंधित करते हैं :--

प्रवर सूची 2010 (01.01.2010 से 31.12.2010 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं. अधिकारी का नाम

(सर्वश्री)

1. एम. रामा राव (अ.ज.जा.)
2. एम चम्पालाल (अ.ज.जा.)
3. के. शारदा देवी (अ.ज.जा.)

प्रवर सूची 2011 (01.01.2011 से 31.12.2011 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं. नाम

(सर्वश्री)

1. श्रीमती बी. भारती लक्ष्मी नायक (अ.ज.जा.)
2. जे. मुरली
3. सी. एच. श्रीधर (अ.ज.जा.)
4. एम. वी. शेषगिरि बाबू
5. बी. विजेन्द्र (अ. ज. जा.)
6. डी. मुरलीधर रेड्डी
7. बी. लक्ष्मी कांतम
8. के. कन्ना बाबू
9. एस. सत्यनाराण
10. के. वाई. नायक (अ.ज.जा.)
11. पी. वेंकट रामी रेड्डी
12. के. सुरेन्द्र मोहन

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2013

सं. 14012/08/2012-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2008 बैच के बिहार राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री प्रणव कुमार को दिनांक 22.02.2012 से स्थायी करते हैं।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2013

सं. 19011/7/2012-प्रशासन-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सी.एस.-II (क) दिनांक 17 जुलाई, 2012 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री राजू गोस्वामी, निजी सचिव, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) को वरिष्ठता कोटे (एस. क्यू.) के लिए जोनिंग योजना के अंतर्गत चयन सूची 2010 के सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड (क एवं ख) (विलयित) की चयन सूची में नियमित आधार पर दिनांक 31.08.2012 के अपराह्न से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कक्कड़, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय उप प्रोतोकाल-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

सं. डी-III/460/सीएफ-10/2012--भारत के राष्ट्रपति, बेंगलूरु में मेसिडोनिया गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री पुरषोत्तम कोरामंगल जयराम की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री पुरषोत्तम कोरामंगल जयराम के कौंसली क्षेत्राधिकार में कर्नाटक राज्य होगा, जिसका केंद्र बेंगलूरु होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकाल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

सं. 26/2012 (फा. सं. ए-32014/02/2012-प्रशा.1ए)--राष्ट्रपति, सीएसएसएस के निम्नलिखित नियमित निजी सचिवों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2012 के का. ज्ञा. सं. 3/4/2012-सी. एस.-II (क) के अनुसार 22 नवम्बर, 2012 से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	डीओपी सूची में क्रम सं.	नाम
(सर्वश्री)		
1.	18	चन्द्र प्रकाश शर्मा
2.	82	संसार चन्द बिरडी

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

सं. 117 (फा. सं. ए. 19012/20/2012-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री एम. एस. शर्मा को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 नवम्बर, 2012 के आदेश सं. 4/14/2011-सी. एस.-1 (डी) के तहत तदर्थ आधार पर चयन ग्रेड (उप सचिव) में उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप दिनांक 21.11.2012 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्न शर्तों के अध्वधीन, इस विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :--

- (i) यह तदर्थ नियुक्ति उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित रिट याचिका संख्या 4097/2011 (अरुण गौड बनाम गरिमा सिंह व अन्य), रिट याचिका संख्या 4616/2011 (वी. एस. पाण्डे बनाम गरिमा सिंह व अन्य), रिट याचिका संख्या 7619/2011 (संघ लोक सेवा आयोग बनाम गरिमा सिंह व अन्य), रिट याचिका संख्या 2176/2012 (भारत संघ बनाम गरिमा सिंह व अन्य) और अन्य संबंधित रिट याचिका संख्याओं डब्ल्यू. पी. (सी) 2523/2012 (भारत संघ बनाम अनन्त किशोर सरन), रिट याचिका (सी) 2524/2012 (भारत संघ बनाम शेरशों व अन्य), रिट याचिका (सी) 2525/2012 (भारत संघ बनाम सैयद इकरम रिजवी और अन्य), रिट याचिका (सी) 2526/2012 (भारत संघ बनाम संदीप कुमार गुप्ता), रिट याचिका (सी) 2527/2012 (भारत संघ बनाम सौम्या चट्टोपाध्याय व अन्य) व उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी (सी) संख्या 9653/2012 (सैयद इकरम रिजवी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य) और उपर्युक्त के अलावा किसी भी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के भी अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

- (ii) तदर्थ नियुक्ति पदधारी को ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु किसी दावे को करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (iii) ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की उस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।
- (iv) तदर्थ आधार पर नियुक्ति अधिकारी को आबंटित किए गए मंत्रालय/विभाग में उप सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

सं. 118 (फा. सं. ए. 19012/19/2012-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री कबिन्द्रा जोशी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 नवम्बर, 2012 के आदेश सं. 4/14/ 2011-सी. एस.-1 (डी) के तहत तदर्थ आधार पर चयन ग्रेड (उप सचिव) में उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप दिनांक 21.11.2012 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्न शर्तों के अध्वधीन, इस विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :--

- (i) यह तदर्थ नियुक्ति उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित रिट याचिका संख्या 4097/2011 (अरुण गौड बनाम गरिमा सिंह व अन्य),

रिट याचिका संख्या 4616/2011 (वी. एस. पाण्डे व अन्य बनाम गरिमा सिंह व अन्य), रिट याचिका संख्या 7619/2011 (संघ लोक सेवा आयोग बनाम गरिमा सिंह व अन्य), रिट याचिका संख्या 2176/2012 (भारत संघ बनाम गरिमा सिंह व अन्य) और अन्य संबंधित रिट याचिका संख्याओं डब्ल्यू. पी. (सी) 2523/2012 (भारत संघ बनाम अनन्त किशोर सरन), रिट याचिका (सी) 2524/2012 (भारत संघ बनाम शेरशों व अन्य), रिट याचिका (सी) 2525/2012 (भारत संघ बनाम सैयद इकरम रिजवी और अन्य), रिट याचिका (सी) 2526/2012 (भारत संघ बनाम संदीप कुमार गुप्ता), रिट याचिका (सी) 2527/2012 (भारत संघ बनाम सौम्या चट्टोपाध्याय व अन्य) व उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी (सी) संख्या 9653/2012 (सैयद इकरम रिजवी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य) और उपर्युक्त के अलावा किसी भी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के भी अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

- (ii) तदर्थ नियुक्ति पदधारी को ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु किसी दावे को करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (iii) ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की उस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।
- (iv) तदर्थ आधार पर नियुक्ति अधिकारी को आबंटित किए गए मंत्रालय/विभाग में उप सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 5 दिसम्बर 2012

सं. 120 (फा. सं. ए. 19012/21/2012-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री ओ. पी. जोशी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 नवम्बर, 2012 के आदेश सं. 4/14/ 2011-सी. एस.-1 (डी) के तहत तदर्थ आधार पर चयन ग्रेड (उप सचिव) में उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप दिनांक 29.11.2012 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्न शर्तों के अध्वधीन, इस विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :--

- (i) यह तदर्थ नियुक्ति उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित रिट याचिका संख्या 4097/2011 (अरुण गौड बनाम गरिमा सिंह व अन्य), रिट याचिका संख्या 4616/2011 (वी. एस. पाण्डे व अन्य बनाम गरिमा सिंह व अन्य), रिट याचिका संख्या 7619/2011 (संघ लोक सेवा आयोग बनाम गरिमा सिंह व अन्य), रिट याचिका संख्या 2176/2012 (भारत संघ बनाम गरिमा सिंह व अन्य) और अन्य संबंधित रिट याचिका संख्याओं डब्ल्यू. पी. (सी) 2523/2012 (भारत संघ बनाम अनन्त किशोर सरन), रिट याचिका (सी) 2524/2012 (भारत संघ बनाम शेरशों व अन्य), रिट याचिका (सी) 2525/2012 (भारत संघ बनाम

सैयद इकरम रिजवी और अन्य), रिट याचिका (सी) 2526/2012 (भारत संघ बनाम संदीप कुमार गुप्ता), रिट याचिका (सी) 2527/2012 (भारत संघ बनाम सौम्या चट्टोपाध्याय व अन्य) व उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी(सी) संख्या 9653/2012 (सैयद इकरम रिजवी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य) और उपर्युक्त के अलावा किसी भी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के भी अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

- (ii) तदर्थ नियुक्ति पदधारी को ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु किसी दावे को करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (iii) ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की उस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।
- (iv) तदर्थ आधार पर नियुक्ति अधिकारी को आर्बिट्रिट किए गए मंत्रालय/विभाग में उप सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2013

सं. 11012/1/2011-आईईएस--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2011 में सफल रहे निम्नलिखित अभ्यर्थियों को, यथासंशोधित भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 के नियम 6(क) के अंतर्गत, भारतीय आर्थिक सेवा में कनिष्ठ समयमान में पे बैंड-3 : 15,600--39,100/- रुपए जमा ग्रेड पे : 5,400/- रुपए के वेतनमान में उनके नाम के सामने वर्णित तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री कनिष्क शर्मा	17.12.2012 (पूर्वाह्न)
2.	सुश्री कृति गर्ग	17.12.2012 (पूर्वाह्न)
3.	सुश्री स्वाति सिंगला	17.12.2012 (पूर्वाह्न)
4.	श्री लेसांग अंगमू लामा	17.12.2012 (पूर्वाह्न)
5.	श्री वैभव रंदावल	17.12.2012 (पूर्वाह्न)
6.	श्री राहुल सिंह	17.12.2012 (पूर्वाह्न)
7.	श्री अजीत कुमार रंजन	17.12.2012 (पूर्वाह्न)
8.	श्री सतीश कुमार टी.	17.12.2012 (पूर्वाह्न)
9.	श्री ऋषि कांत	17.12.2012 (पूर्वाह्न)
10.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	17.12.2012 (पूर्वाह्न)
11.	सुश्री ममता मीना	17.12.2012 (पूर्वाह्न)

बिदिशा चौधरी, निदेशक (आईईएस)

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

सं. ए-12011/6/2009-प्रशा.2--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.08.2012 के का. ज्ञा. सं. 6/11/2012-सीएस-1 (एस) और संवर्ग प्रशासनिक अनुभाग, व्यय विभाग के दिनांक 23.10.2012 के का.ज्ञा. सं. ए.32015/02/2012-सीएस के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सहायक श्रीमती आभा गर्ग को रु. 4,800/- ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में तदर्थ आधार पर 17.12.2012 के पूर्वाह्न से प्रारंभ में 31.12.2012 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :--

2. अनुभाग अधिकारी के पद पर श्रीमती आभा गर्ग की तदर्थ नियुक्तियां निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी :--

- (क) तदर्थ प्रोन्नति की अवधि 31.12.2012 तक अथवा अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, होगी।
- (ख) यह तदर्थ नियुक्ति, कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण, इससे अधिकारी को अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ग) यह तदर्थ व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के जरिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें, संबंधित संवर्ग में उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी) द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 26 दिसम्बर 2012

सं. ए.12011/5/2012-प्रशा.2--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सीएस-1 (यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री अमरजीत सिंह (सीएसएल : 7502) के 29 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से 31.05.2013 तक की अवधि के लिए पूर्णतः तदर्थ आधार पर ग्रेड-1 (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त संदर्भित आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 दिसम्बर 2012

सं. ए.19011/22/2012-प्रशा.2--राष्ट्रपति, सुश्री सिंगी थॉमस वैद्यन, भा. प्र. से. (तमिलनाडु : 2002) की 26 दिसम्बर, 2012 के अपराह्न

से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 09.08.2015 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

सं. ए. 19012/2/2008-डीआरटी--ऋण वसूली अधिकरण, रांची के पीठासीन अधिकारी श्री देबी प्रसाद मिश्रा इस पद पर अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 (अपराह्न) से पीठासीन अधिकारी का पदभार छोड़ देंगे।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. ए-38015/18/2012/एड. I--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्री गिरीश कुमार गव्हाणे अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 31 दिसम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

2. इसी तारीख से उनका नाम विभाग की नामावली से काट दिया जाएगा।

बिप्लब कुमार रॉय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2013

सं. ए-11019/3/2012/ईजी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 30.10.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 15,600--39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) के वेतनमान में महालेखाकार (ए एंड ई) उत्तर प्रदेश का कार्यालय, इलाहाबाद में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनिल शर्मा, अवर सचिव

महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

सं. ए-32013/8/2012/गुप ए/2857-2869--राष्ट्रपति, समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') भर्ती नियमावली, 2006 के अनुसार निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (समूह 'ख') को 1 जनवरी, 2013 (पूर्वाह्न) से रु. 8,000-275-13,500/- (पूर्व संशोधित) (नए वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) भारतीय सिविल

लेखा सेवा (समूह 'क') के कनिष्ठ समयमान में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं. नाम

(सर्वश्री)

1. एच. पॉल शेखर
2. हरि प्रकाश
3. शैलेन करमाकर
4. एस. एस. भौमिक
5. टी. आर. चावला
6. आर. के. डबास

2. परीक्षा की अवधि 1 जनवरी, 2013 से दो वर्ष की होगी।

सी. महेश्वरन, उप महालेखा नियंत्रक

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

सं. 9/8/2012-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 के आदेश सं. 21/1/2012-सीएस-I (डी) के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति, सुश्री अनीता चौहान को विनिवेश विभाग में 37,400--67,000/- रुपए + 10,000/- रुपए ग्रेड पे (पीबी-4) के वेतनमान में 27 दिसम्बर, 2012 अर्थात् विनिवेश विभाग में पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के अपराह्न से संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आशीष कुमार, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

सं. ए-12023/06/2012 प्रशा.-I--राष्ट्रपति, डॉ. अमनदीप सिंह, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: 1997) को दिनांक 29 अक्टूबर, 2012 के अपराह्न से ग्रेड वेतन 8,700/- रुपए के साथ वेतन बैंड-4 रुपए 37,400--67,000 में माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) का निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय में डॉ. अमनदीप सिंह की नियुक्ति दिनांक 04.09.2013 तक निजी सचिव के रूप में उनकी पदावधि की शेष अवधि के लिए 'पार्श्व स्थानांतरण' आधार पर या मंत्री महोदय के साथ पदानुरूप आधार पर या तब तक जब तक वह मंत्री के निजी सचिव रहते हैं या अगले आदेश तक, जो भी सबसे पहले हो, होगी।

क्षितीश कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

सं. ए-32013/1/2012-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित तदर्थ ग्रेड-I अधिकारियों (अवर सचिवों) को उनके नामों

के सामने उल्लिखित चयन सूचियों के लिए उन्हें पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित ग्रेड-I अधिकारियों (अवर सचिवों) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	केन्द्रीय चयन सूची सं.	नाम	जन्मतिथि	चयन सूची वर्ष
		(श्री/सर्वश्री)		
1.	6482	राजीव शर्मा	31.08.1962	2009
2.	6662	बी. ध्वांग सियानडोंग	01.01.1971	2009
3.	6593	अविक बासु	23.01.1964	2010
4.	6643	संजय शंकर	31.07.1962	2010
5.	6707	अजय कुमार	11.06.1967	2010
6.	6731	जय नारायण	20.09.1965	2010
7.	6834	रामचन्द्र दास	11.02.1963	2010

2. उपर्युक्त चयन सूची में शामिल अधिकारियों की वरीयता वही रहेगी जो उनके नामों के सामने उल्लिखित है और इस का उनकी ग्रेड-I में नियुक्ति की वास्तविक तारीख से कोई संबंध नहीं है। नियमित आधार पर अवर सचिवों को उपर्युक्त चयन सूचियों में शामिल अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दि. 24.02.2012 के अंतरिम आदेश के संबंध में पी. एस. भंडारी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक वाली ओ.ए. सं. 611/2012 के अंतिम परिणाम और किसी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के अधधीन होगी।

अनुराग सक्सेना, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

सं. ए-38013/1/2012-संवर्ग--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निदेशक (सी.एस.एल. सं. 3665; जन्मतिथि 05.12.1952) श्री ललन दास पी.आर.ए. 31 दिसम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

संजय शंकर, अवर सचिव

दिनांक 27 दिसम्बर 2012

सं. ए-32014/4/2012-संवर्ग--राष्ट्रपति, श्री परिमल करण (के.च. सू. सं. 7830, जन्म तिथि: 02.05.1967) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी.एस.-I (यू), के संबंध में दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 के अपराह्न से वाणिज्य विभाग, (पूर्ति प्रभाग) में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

संजय शंकर, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2013

सं. ए-32015/7/2012-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव (तदर्थ) श्री पी. के. मदान को 31.12.2012 (अपराह्न) से चयन सूची वर्ष 2010 के लिए वरीयता कोटा में वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित निजी सचिव के रूप में पी.बी.-2 (रु. 9,300--34,800 + ग्रेड पे रु. 4,800/-) में नियुक्त करते हैं।

संजय शंकर, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. ए-15012/1/2005-प्रशा./स्था.--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06/12/012 के आदेश सं. 5/9/2012/सी.एस. I(यू), के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्री संजीव भट्टाचार्या (सीएसएल सं. 1707) को पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर कोयला मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में 18.12.2012 (पूर्वा.) से 31.05.2013 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऊपर उल्लिखित दिनांक 06.12.2012 के डीआपी एंड टी के आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधधीन नियुक्त किया जाता है।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

सं. ए-22011/7/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री अरुण कुमार चौबे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 के अपराह्न से 1 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में श्री चौबे की तदर्थ नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.11.2012 के आदेश संख्या-4/14/2011-सीएस-I (डी) के पैरा-2 में निर्धारित शर्तों के अधधीन है।

एल. हौकिप, उप सचिव

दिनांक 01 जनवरी 2013

सं. ए-18011/131/2011-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री दिनेश सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ.प्र. :1982) जिन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति होने पर दिनांक 1 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार त्याग दिया है, को कार्य मुक्त करते हैं।

एल. हौकिप, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. ए-32012/1/2010-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.12.2012 के का.ज्ञा. संख्या 6/11/2012-सी.एस. I(एस) और जल संसाधन मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या 4/7/2010-प्रशा. (का.आ. सं. 1248/2012) के अनुसरण में जल संसाधन मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री प्रेम चन्द को दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 पूर्वाह्न से दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में 9,300--34,800/- रुपये के वेतनमान और 4,800/- रुपये ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2013

सं. ए-12011/2/2010-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 दिसम्बर 2012 के आदेश संख्या 4/4/2011-सी. एस. I(डी) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव, ग्रेड-I श्री रोबिन चटर्जी को 31 दिसम्बर, 2012 के अपराह्न से प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान (पी.बी.-3) और 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

सं. ए-28012/6/2012-एसआरए--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सामान्य केन्द्रीय सेवा के श्री के. एल. खराड़ी, उप निदेशक (भं. एवं अनु.) 1 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न से स्वेच्छिक रूप से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

आर. सी. मनोचा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2012

सं. ए-32013/1/2010-ई-1--राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी, श्री राम चंद्र को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अंतर्गत अवर सचिव के पद पर वेतन बैंड-3 अर्थात् 15,600--39,100/- रुपये जमा 6,600/- रुपये

ग्रेड वेतन में दिनांक 01.11.2012 की पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री राम चंद्र, अनुभाग अधिकारी की अवर सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओ ए सं. 1083/2007 के अंतिम निर्णय तथा ओ ए सं. 1083/2007 से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय के किसी अन्य आदेश के भी अध्यधीन है।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32013/1/2010-ई-1--राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी, श्रीमती इंदिरा एम को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अंतर्गत अवर सचिव के पद पर वेतन बैंड-3 अर्थात् 15,600--39,100/- रुपये जमा 6,600/- रुपये ग्रेड वेतन में दिनांक 30.10.2012 की पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्रीमती इंदिरा एम, अनुभाग अधिकारी की अवर सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओ ए सं. 1083/2007 के अंतिम निर्णय तथा ओ ए सं. 1083/2007 से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय के किसी अन्य आदेश के भी अध्यधीन है।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 18 दिसम्बर 2012

सं. ए-11011/1/2004-स्थापना-1--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासन सेवा (उ. प्र. : 89) के श्री प्रशान्त त्रिवेदी को दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में पे-बैंड-4 (रुपए 37,400--67,000 + ग्रेड पे रुपए 10,000/-) में 5 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32013/1/2010-स्थापना-1--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6.12.2012 के आदेश संख्या 5/9/2012-सी.एस.-1(एसू) के अनुपालन में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री ओ.पी. बछैती को दिनांक 7.12.2012 के पूर्वाह्न से पे-बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये) + 6,600/- (ग्रेड-पे) में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री ओ. पी. बछैती, अनुभाग अधिकारी को अवर सचिव के ग्रेड पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति कैंट, नई दिल्ली में लंबित ओ.ए. नं. 1083/2007 के अंतिम परिणाम तथा ओ.ए. नं. 1083/2007 से संबंधित किसी मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अध्यधीन है।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली-110016, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

सं. ए-19013/02/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री सम्पत नारायण, उप सचिव केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) विद्युत मंत्रालय संवर्ग को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में सीएसएस संवर्ग के चयन ग्रेड उपसचिव के रूप में पीबी-3 (रु. 15,600--39,100) सहित ग्रेड पे रु. 7,600/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 21.12.2012 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. इस पद पर तदर्थ पदोन्नति अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में सम्मिलित करने या चयन ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करेगी और यह नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. ए-12023/01/2011-स्थापना-1--राष्ट्रपति, डॉ. वन्दना कालिया को सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उनके चयन के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में वैज्ञानिक 'डी' के पद पर ग्रेड पे रुपये 7,600/- सहित पे-बैंड-3 में रुपए 15,600--39,100 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति भारत सरकार की नई पेंशन योजना के अधीन शासित होगी।

2. वह एक वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

सं. ए-19011/12/2012-पी.II (.)--राष्ट्रपति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 4.10.2012 के आदेश संख्या 12015/03/2012-आईएसएस और पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 11.10.2012 के कार्यमुक्ति आदेश संख्या ए-35018/06/2007-प्रशा.1 के अनुसार में, श्री नीलकंठ घोष द्वारा रिक्त किए गए पद पर डॉ. राज नाथ पाण्डे (आईएसएस : 1980) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सांख्यिकीय सलाहकार के पद (10,000 रुपए के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000 रुपए के वेतन बैंड-4 में एसएजी में) पर दिनांक 16.10.2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, नियुक्त करते हैं।

एम. के. राय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 नवम्बर 2012

सं. ए-12012/4/2005-पी.II (.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी.एस.-I (यू) के द्वारा के. स. से. के अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति के लिए अनुमोदित किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री अशोक कुमार (सीएसएल सं. 7481),

अनुभाग अधिकारी, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को दिनांक 14 नवम्बर, 2012 के अपराह्न से अगले आदेशों तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 6,600/- रुपये ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-III (15,600--39,100/- रुपये) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (i) इस तदर्थ पदोन्नति से अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में समावेशन हेतु अथवा के. स. से. के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा;
- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति, किसी भी समय, बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है;
- (iii) यदि अधिकारी ने के. स. से. की संवर्ग प्रशिक्षण योजना में यथा लागू स्तर 'घ' का अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तो उसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- (iv) अधिकारी की तदर्थ पदोन्नति कैंट, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित ओए संख्या 1083/2007 के अंतिम परिणाम और ओए संख्या 1083/2007 के अतिरिक्त किसी अन्य संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले किसी अन्य आदेश अध्याधीन होगी।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक जनवरी 2013

सं. ए-12025/18/2011-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. एजाज अख्तर सिद्दीकी को 11 जून, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में सर्जरी के सहायक प्रोफेसर के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/67/2011-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रज्वला गुप्ता को दिनांक 24.09.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक परिवीक्षा पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में पैथोलॉजी के सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 2 जनवरी 2013

सं. ए-12025/218/2009-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. कड़ीजा एन. एस. को दिनांक 20 मई,

2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतनमान 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन (पीबी-3) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. कड़ीजा एन. एस. को संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

सं. ए-32013/1/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/4/2012-सीएच-II (ए) दिनांक 16.11.2012 के तहत सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड की चयन सूची में नाम दर्ज होने के फलस्वरूप श्री टी. वी. पौलोज को सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के पद पर 27 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संवर्ग में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2012

सं. 32013/01/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति द्वारा सी एस एस के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर उनके नामों के सामने दी गई तारीख के पूर्वाह्न से वेतन बैंड (15,600--39,100/- रु.) + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में कृषि एवं सहकारिता विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	विभाग जहां कार्यरत	सीएसएस नं.	नियुक्ति की तारीख
(श्री/श्रीमती/सुश्री)				
1.	कमल अरोरा	वाणिज्य विभाग	7355	21.11.2012
2.	गणेश सिंह	वाणिज्य विभाग	7319	21.11.2012

2. सी एस एस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के लिए पदोन्नतियां 31.05.2013 तक की अवधि के लिए विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर हैं या अब तक पद नियमित आधार पर भरे जाते हैं या अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो। उपरोक्त पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं :-

- तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चित रूप से जारी रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने का या सी एस एस के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।
- तदर्थ नियुक्तियां किसी भी समय पर उसका कोई कारण दिए बिना समाप्त की जा सकती हैं।

- अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की उस ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्य हेतु या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।
- उन अधिकारियों को जो सीएसएस के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना में व्यादेश दिए अनुसार अनिवार्य स्तर "घ" प्रशिक्षण नहीं लिया है, इस विभाग द्वारा नामांकन किए अनुसार उपर्युक्त प्रशिक्षण लेना पड़ेगा।
- अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति सीएटी, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित ओए सं. 1083/2007 के अंतिम परिणाम और ओए सं. 1083/2007 के अलावा किसी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के अधीन होगी।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 4 दिसम्बर 2012

सं. 32013/01/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति द्वारा सी एस एस के श्री ए. के. वशिष्ठ, अनुभाग अधिकारी को विशुद्ध रूप से "तदर्थ" आधार पर दिनांक 23 नवम्बर, 2013 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड (15,600--39,100/- रु.) + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में कृषि एवं सहकारिता विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. सी एस एस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के लिए पदोन्नतियां 31.05.2013 तक की अवधि के लिए विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर हैं या जब तक पद नियमित आधार पर भरे जाते हैं या अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो। उपरोक्त पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं :-

- तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में से अनिश्चित रूप से जारी रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने का या सी एस एस के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।
- तदर्थ नियुक्तियां किसी भी समय पर उसका कोई कारण दिए बिना समाप्त की जा सकती हैं।
- अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की उस ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्य हेतु या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।
- उन अधिकारियों को जो सी एस एस के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना में व्यादेश दिए अनुसार अनिवार्य स्तर "घ" प्रशिक्षण नहीं लिया है, इस विभाग द्वारा नामांकन किए अनुसार उपर्युक्त प्रशिक्षण लेना पड़ेगा।
- अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति सीएटी, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित ओए सं. 1083/2007 के अंतिम परिणाम और ओए सं. 1083/2007 के अलावा किसी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के अधीन होगी।

के. संजयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

सं. 2-4//2012-एस.डी. V--राष्ट्रपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक के कुलपति डॉ. आर. आर. हंचीनल, को पौध किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 80,000/- रुपए (निश्चित) के वेतनमान में अनुबंध के आधार पर पद ग्रहण की तारीख से 5 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

गोरेलाल दिवाकर, सहायक आयुक्त (बीज)

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

सं. 38013/15/2012-स्था.-I--श्री दिव्येन्दु मुखोपाध्याय, अनुभाग अधिकारी, कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

संदीप कुमार, अवर सचिव

सं. 38013/16/2012-स्था.-I--श्री वसीम अहमद खान, अनुभाग अधिकारी, कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

संदीप कुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. 38013/17/2012-स्था.-I--श्री प्रवीण कुमार भाटिया, निजी सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

संदीप कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

सं. 6-2/2012-आईएनएम-I--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय जैविक कृषि केन्द्र, (एनसीओएफ), गाजियाबाद में कार्यरत डॉ. कृष्ण चन्द्र, क्षेत्रीय निदेशक, पीबी-3 (रुपये 15,600--39,100/- के साथ ग्रेड पे रुपये 7,600/-), जीसीएस, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय को एनसीओएफ में प्रोन्नति आधार पर निदेशक के पद पर पीबी-4 (8,700/- रुपये ग्रेड पे के साथ रुपये 37,400--67,000/-), जीसीएस, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय में 20 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह से और अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

भैरव दत्त, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

सं. ए-19011/35/2012-प्रशासन-1--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 14.12.2012 के कार्यालय आदेश सं. 12016/3/एस ए जी/2011-आई एस एस द्वारा श्री ओ. पी. मिश्र की वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एस ए जी) में पदोन्नति होने और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में उनकी तैनाती होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, उन्हें 18.12.2012 के पूर्वाह से इस विभाग में पीबी-4 में 37,400--67,000/- + 10,000/- रुपये ग्रेड वेतन के वेतनमान में उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

सं. ए-19011/10/2008-स्था-I--राष्ट्रपति ने श्री एस. के. नन्दा (अनुभाग अधिकारी चयन सूची वर्ष 1995) तथा श्री संजय बाजपेई (अनुभाग अधिकारी चयन सूची वर्ष 1996), जो क्रमशः 18.07.2008 एवं 22.09.2010 से इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव का पद धारण किए हुए हैं, का नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव ग्रेड-I चयन सूची वर्ष 2009 में तुरन्त प्रभाव से शामिल किया है। अवर सचिव के ग्रेड में उनकी अनुमोदित सेवा 01.07.2009 से लागू मानी जाएगी।

रोहित माथुर, निदेशक

नई दिल्ली-110049, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

सं. ए-22020/1/2011-स्था-I--राष्ट्रपति ने डॉ. डी. के. सिंह, निदेशक (लारडिस), लोकसभा सचिवालय को माननीय मंत्री (कृषि एवं एफ पी आई) [श्री शरद पवार] के ओएसडी (विशिष्ट कार्य अधिकारी) के रूप में, पीबी-4 : 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रुपये 8,700/- की वेतन संरचना में दिनांक 05.11.2012 (पूर्वाह) से मई, 2014 तक अथवा को-टर्मिनस अवधि में मंत्री (कृषि एवं एफ पी आई) [श्री शरद पवार] की इच्छा तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

संजय बाजपेई, अवर सचिव

दिनांक 1 जनवरी 2013

सं. ए-19011/22/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति ने मो. रेहान जहीर, नियमित अनुभाग अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में कार्यभार संभालने की तारीख से प्रारम्भ में 31.05.2013 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संशोधित वेतन संरचना पीबी- 15,600--39,100/- रुपये + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया है।

2. मो. रेहान जहीर ने दिनांक 30.10.2012 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में अवर सचिव (तदर्थ) के पद पर (अपने कनिष्ठ श्री आर. राजा कन्नू (वाणिज्य विभाग में सीएसएल सं. 7527) के पद ग्रहण करने की तिथि से) कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

संजय बाजपेई, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 2013

सं. ए-19011/10/2012-स्था.--महामहिम राष्ट्रपति जी, सुश्री नीरजा, भा.प्र.से. (एच.वाई. : 1993) को पंचायती राज मंत्रालय में दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से एवं अगले आदेशों तक संयुक्त सचिव के पद पर 37,400--67,000/- (पीबी-4) एवं ग्रेड पे 10,000/- के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

जी. एस. चित्रा, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

सं. एफ.15-2470/2010-स्था.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 दिसम्बर, 2012 के पत्र सं. 6/55/2012-ईओ (एसएम-I) के अनुपालन में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी, आईएस (एएम:91) पांच वर्ष की अपनी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए, अर्थात् 29.04.2014 तक के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य ग्रहण करने के लिए दिनांक 11.12.2012 (पूर्वाह्न) से इस मंत्रालय से कार्यमुक्त हो गए हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

सं. 5-2/84-प्रशासन/के.हि.नि.--अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने के फलस्वरूप डॉ. बलिराम प्रसाद, उप निदेशक (भाषा), केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, आर. के. पुरम, नई दिल्ली को दिनांक 31.12.2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

पवन मेहता, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2012

सं. 5-9/2012-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश सं. 5/9/2012 सीएस-I (यू) द्वारा नामित किए जाने पर राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को पूर्णतः तदर्थ आधार पर उनके नाम के सामने दी गई निम्नलिखित तारीखों से 31.05.2013 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक पद नियमित आधार पर नहीं भरे जाते अथवा आगामी

आदेशों तक, जो भी पहले हो, पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) ग्रेड पे 6,600/- रुपए में सीसीएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	सीएसएल संख्या	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री समीर सिन्हा	7199	02.11.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री बी. बी. बसेशंकर	7536	30.10.2012 (पूर्वाह्न)

2. यह नियुक्ति उपरोक्त आदेश में उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन है।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 29 नवम्बर 2012

सं. 5-9/2012-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश सं. 5/9/2012 सीएस-I (यू) द्वारा नामित किए जाने पर राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी, श्री सुदेश कुमार को पूर्णतः तदर्थ आधार पर दिनांक 08.11.2012 (पूर्वाह्न) से 31.05.2013 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक पद नियमित आधार पर नहीं भरे जाते अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) ग्रेड पे 6,600/- रुपए में सीसीएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति उपरोक्त आदेश में उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन है।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 13 दिसम्बर 2012

सं. 5-9/2012-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश सं. 5/9/2012 सीएस-I (यू) द्वारा नामित किए जाने पर राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी, श्री राम प्रसाद को पूर्णतः तदर्थ आधार पर दिनांक 21.11.2012 (पूर्वाह्न) से 31.05.2013 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक पद नियमित आधार पर नहीं भरे जाते अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) ग्रेड पे 6,600/- रुपए में सीसीएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति उपरोक्त आदेश में उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन है।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 17 दिसम्बर 2012

सं. 5-2/2012-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2012 के आदेश सं. 3/4/2012 सीएस-II (क) द्वारा वर्ष 2010

(भाग) की चयन सूची में सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, सुश्री के. एस. कांतिमती नियमित निजी सचिव (पीएस) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सीएसएसएस वर्ग में नियमित आधार पर पे बैंड-3, 15,600-- 39,100/- ग्रेड पे 6,600/- रुपए में दिनांक 16.11.2012 पूर्वाह्न से प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

सं. 12014/12/2012-बीसी-III--राष्ट्रपति, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, श्री ए. ए. नकवी के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यकाल को 04.11.2012 से उनके सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 31.10.2014 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सुरेखा साहू, निदेशक (बी.सी. III)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

सं. 17016/62/2011-एस.सी.डी.-VI--राष्ट्रपति, श्रीमती पी. गिरिजा को दिनांक 11.10.2012 के पूर्वाह्न से अर्थात् प्रतिनियुक्ति आधार पर उनके पदग्रहण करने की तारीख से 4 वर्षों की अवधि के लिए उनकी अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. ए. मुरलीधरन, उप सचिव

सं. 17016/62/2011-एस.सी.डी.-VI--राष्ट्रपति, श्री डी. वेंकटेशन को दिनांक 05.10.2012 के पूर्वाह्न से अर्थात् प्रतिनियुक्ति आधार पर उनके पदग्रहण करने की तारीख से 4 वर्षों की अवधि के लिए उनकी अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. ए. मुरलीधरन, उप सचिव

सं. 17016/62/2011-एस.सी.डी.-VI--राष्ट्रपति, श्री राजीव भट्टाचार्य को दिनांक 19.10.2012 के पूर्वाह्न से अर्थात् प्रतिनियुक्ति आधार पर उनके पदग्रहण करने की तारीख से 4 वर्षों की अवधि के लिए उनकी अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. ए. मुरलीधरन, उप सचिव

सं. 17016/62/2011-एस.सी.डी.-VI--राष्ट्रपति, श्री डी. हनुमंताचार्य को दिनांक 05.10.2012 के पूर्वाह्न से अर्थात् प्रतिनियुक्ति आधार पर उनके पदग्रहण करने की तारीख से 4 वर्षों की अवधि के लिए उनकी अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. ए. मुरलीधरन, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

सं. ए-12034/8/2012-स्था. II--राष्ट्रपति, श्री भूकिया श्रीनिवास, जेटीओ, बीएसएनएल, आंध्र प्रदेश को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नाईक) के कार्यालय में प्रथम निजी सचिव (पे बैंड-2, ग्रेड पे-4,800/- रुपए) के पद पर 17.12.2012 (पूर्वाह्न) से मंत्री के कार्यकाल तक सह-सत्रावसानि आधार पर अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

दिनांक 26 दिसम्बर 2012

सं. ए-12022/01/2010-स्था. II--इस मंत्रालय की दिनांक 04.10.2012 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, पैरा I निम्नानुसार संशोधित है :-

“राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/3/2011-सी.एस. II (ए), दिनांक 20 मार्च, 2012 के अनुसरण में इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों (तदर्थ) और निजी सचिव को चयन सूची वर्ष 2010 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव (समूह 'क' राजपत्रित, लिपिकवर्गीय) के पद पर दिनांक 20 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. ए-12034/07/2012-स्था. II--राष्ट्रपति, श्री वी. वी. एस. खरायात, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा) के अपर निजी सचिव के रूप में 28.10.2012 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) में 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ मंत्री के कार्यकाल के सह-सत्रावसान तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

सं. ए-53011/8/2012-स्था.--इस मंत्रालय की दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में राष्ट्रपति, श्री सुधीर सिंह रावत, भारत के जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (टीआरआईएफईडी) में नियमित सहायक को 30 नवम्बर, 2012 से माननीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उनके वेतन एवं भत्ते संगत नियमों के अनुरूप निर्धारित किए जाएंगे।

2. माननीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के अपर निजी सचिव के रूप में श्री सुधीर सिंह रावत की नियुक्ति सहकालिक आधार पर अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के कार्यकाल के साथ अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है।

3. इसे अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

दिनांक 21 दिसम्बर 2012

सं. ए-19011/54/2010-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 के का. ज्ञा. सं. 17/1/2012- सीएसआई (यू) के अनुसरण में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अवर सचिव, श्रीमती हेमलता नारायणन, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएल सं. 6428) की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के स्वीकरण के संबंध में, सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत श्रीमती हेमलता नारायणन, सीएसएस, अवर सचिव को दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

2. इसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 जनवरी 2013

सं. ए-22012/3/2006-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/9/2012-सीएस-I (यू) के अनुसरण में, श्री डी. आर. सैनी, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के एक नियमित अनुभाग अधिकारी को निम्नलिखित शर्तों के अधधीन तदर्थ आधार पर दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड (पीबी-3) 15,600--39,100/- रु. जमा ग्रेड वेतन 6,600/- रु. में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

- (i) यह पदोन्नति 31 मई, 2013 तक की अवधि अथवा नियमित रूप में पदों के भरे जाने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए पूर्ण रूप में तदर्थ आधार पर है।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति से उस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा

सीएसएस के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।

- (iii) तदर्थ नियुक्ति बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द की जा सकती है।
- (iv) तदर्थ आधार पर अवर सचिव ग्रेड में की गई सेवा की उसी ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के उद्देश्य से गणना नहीं की जाएगी।
- (v) श्री सैनी की 'तदर्थ' पदोन्नति कैट, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ ए सं. 1083/2007 के अंतिम निष्कर्ष और ओ ए सं. 1083/2007 के अतिरिक्त किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में दिए जाने वाले अन्य आदेश के अधधीन होगी।

के. डी. सिंह, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. 19011/22/2011-स्थापना--डॉ. मनोरंजन शर्मा, सहायक निदेशक (रा. भा.) जनजातीय कार्य मंत्रालय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.12.2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के. चन्द्र सेकर, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

सं. 3(2)/2012-का. I--राष्ट्रपति जी ने श्री आलम सिंह बिष्ट, उप निदेशक (स्व-स्थाने/वैयक्तिक) को दिनांक 20.12.2012 पूर्वाह्न से 6,600/- रुपए प्रति माह के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान में इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पदोन्नति पर नियमित आधार पर उप निदेशक नियुक्त किया है।

2. वे अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 3(1)/2011-का. I--सचिव ने श्री जतिन्दर सिंह, अनुभाग अधिकारी (स्व-स्थाने) को इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दिनांक 20.12.2012 से 4,800/- रुपए प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-2, 9,300--34,800/- रुपए में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. 4(674)/2001-कार्मिक-I--इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप निदेशक, श्री आलम सिंह बिष्ट (कर्मचारी कोड सं. 335) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2012 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 4(812)/2009-कार्मिक-I--इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (स्व-स्थाने), श्रीमती प्रेम लता (कर्मचारी कोड सं. 371) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2012 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. पीएफ/1311/एनआईसी/2012-प्रशा. I--श्री अरुण कुमार सिंह, वैज्ञानिक-जी (कर्मचारी कोड सं. 1311) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

जी. एन. कालिया, उप निदेशक (प्रशा-I)

सं. पीएफ/3362/एनआईसी/2012-प्रशा-I--राष्ट्रपति एतद्वारा रा.सू. वि. केंद्र मुख्यालय, नई दिल्ली में कार्यरत श्री विनय कुमार, कर्मचारी कोड : 3362 की वैज्ञानिक-ई के पद से दिनांक 31.12.2012 की पूर्वाह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

जी. एन. कालिया, उप निदेशक (प्रशा-I)

सं. पीएफ/0153/एनआईसी/2012-प्रशा. I--श्री जितेंद्र पाल सिंह, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड सं. 0153) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

जी. एन. कालिया, उप निदेशक (प्रशा-I)

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 नवम्बर 2012

सं. 1-1/2011-प्रशासन--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/9/2012-सीएस-I (यू) दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के अनुसरण

में, राष्ट्रपति, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को डाक विभाग में वेतन बैंड पीबी-3 (15,600--39,100/- रु.) + 6,600/- रु. (ग्रेड वेतन) में सहायक महानिदेशक [सीएसएस के (अवर सचिव) ग्रेड-I] के रूप में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 31.05.2013 तक अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री संजय मेहता	02.12.2012
2.	श्री मनोज कुमार सिंह	07.11.2012

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है :--

- तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चितकाल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची (सेलेक्ट लिस्ट) में सम्मिलित किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है।
- तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
- अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन से अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु काउंट नहीं किया जाएगा।
- जिन अधिकारियों ने अनिवार्य लेवल 'डी' प्रशिक्षण नहीं लिया है, जैसाकि सीएसएस की संवर्ग प्रशिक्षण योजना में आदेश दिया गया है, उन्हें विभाग द्वारा किए गए नामांकन अनुसार उपर्युक्त प्रशिक्षण लेना होगा।
- तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), नई दिल्ली के समक्ष लम्बित ओए सं. 1083/2007 के अंतिम परिणाम तथा ओए सं. 1083/2007 के अलावा अन्य किसी संबंधित मामले में किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा किए गए अन्य किसी आदेश के अध्वधीन होगी।

कुशल वशिष्ठ, निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 24 दिसम्बर 2012

शुद्धि-पत्र

सं. 1-1/2011-प्रशासन--इस विभाग के 30 नवम्बर, 2012 की समसंख्यक अधिसूचना में उल्लिखित श्री संजय मेहता, सहायक महानिदेशक के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (अनजाने में 30 नवम्बर, 2011 के रूप में उल्लिखित) को 02.12.2012 के स्थान पर 02.11.2012 के रूप में पढ़ा जाए। अधिसूचना की शेष विषय-वस्तु वैसी ही रहेगी।

कुशल वरिष्ठ, निदेशक (प्रशासन)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. 6/460/2011-प्रशा.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के सचिव, श्री गिरीश बी. प्रधान, आईएसएस (महाराष्ट्र : 77) दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2012

सं. 17/2012 (फा. सं. 2/4/99-प्रशासन)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/9/2012-सीएस-I (यू) दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के द्वारा माननीय राष्ट्रपति, श्री राजेश शर्मा, शहरी विकास मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के अनुभाग अधिकारी को उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप (उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अंतर्गत) दिनांक 20.11.2012 को पूर्वाह्न से जल संसाधन मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर पीबी-3, 15,600--39,100/- + 6,600/- रुपए (ग्रेड वेतन) पर आरंभ में 31.05.2013 तक अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री राजेश शर्मा को इसी तिथि को सीडब्ल्यूसी में तैनात किया जाता है।

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

सं. 519/2012 (फा. सं. 7/1/2007-प्रशासन-II)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2012 के का.ज्ञा. सं. 3/4/2012-सीएस-II (ए) के तहत चयन सूची वर्ष 2011 के लिए वरिष्ठता कोट के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के पद पर नियुक्ति हेतु इस मंत्रालय में नामांकन के परिणामस्वरूप, वर्तमान में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को एतद्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से 6,600/- रु. के ग्रेड पे के साथ पे बैंड-3 में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर संबंधित कार्यालयों में नियुक्त एवं तैनात किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	निजी सचिव के आधार पर ग्रेड में चयन सूची का वर्ष	नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	प्रमुख निजी सचिव के रूप में तैनाती वाला कार्यालय
----------	-----	-----------	---	--	--

1.	रश्मि मिनोचा	10.07.62	1999	19.11.12 (पूर्वाह्न)	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
2.	अनिल कपूर	24.02.74	1999	16.11.12 (पूर्वाह्न)	आकाशवाणी महानिदेशालय

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

सं. ए-11019/1/2011-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 नवम्बर, 2012 के का.ज्ञा. सं. 3/4/2012-सीएस-II (ए) के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची वर्ष 2010 (भाग) और 2011 में प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में स्थायी आधार पर नियुक्ति हेतु नामांकन किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ए एवं बी' (सम्मिलित)(निजी सचिवों) जो इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद का कार्य कर रहे हैं, को तत्काल प्रभाव से अथवा अगले आदेशों तक चयन सूची वर्ष 2011 के लिए नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	जन्मतिथि	तैनाती का स्थान
----------	-----	--------	----------	-----------------

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 31st December 2012

No. 03/04/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Shri G.S. Patnaik, IAS (AGMU : 1980) as Secretary to the Vice-President of India with effect from the forenoon of 27th December, 2012 till the date of his superannuation.

ASHOK DEWAN, Director

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 28th September 2012

No. RS/19/3/2008/105-Perl.—The Secretary-General, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of Smt. Zubeda Begum, Advocate as the Nominated Counsel for a further period of one year to receive all notices and defend all the cases involving the Rajya Sabha Secretariat in the High Court of Delhi and its Subordinate Courts with effect from 15th September, 2012, on the revised terms and conditions duly accepted by her.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 31st December 2012

No. RS/3/6/1/2012/122-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Amrit Pal, Printing Officer in the Rajya Sabha Secretariat as Assistant Director (P&P) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 22nd December, 2012 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

No. RS/3/6/1/2012/123-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Parwez Husain, Senior Printing Assistant in the Rajya Sabha Secretariat as Printing Officer in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- plus usual allowances as admissible under the rules, on in situ basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 7th December, 2012 and until further orders.

2. The above appointment shall be governed by the provisions contained in scheme of in situ promotion notified vide R&CS Order No. 5/2009 dated 26th November, 2009.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 1st January 2013

No. RS/20/1/2013/I-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Mom Raj Singh, Director, retired from service with effect from the afternoon of 31st December, 2012.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

No. RS/20/1/2013/2-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Vinod Kumar Bhandari, Assistant Director, retired from service with effect from the afternoon of 31st December, 2012.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 2nd January 2013

No. A-19011/1/2013-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Nehchal Sandhu, IPS (BH-73) in the National Security Council Secretariat in the rank and pay of Secretary to the Government of India for a period of three years with effect from the forenoon of 1st January 2013. His appointment would be on re-employment on contract basis initially as Officer on Special Duty until the expiry of the term of the current incumbent, Ms Vijaya Latha Reddy, IFS (75) i.e. upto 20.03.2013 (AN) and as Deputy National Security Adviser and Secretary, NSCS, thereafter.

R. K. JAIN, Under Secy.

No. A-41012/1/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Shri G. Muraleedharan Pillai as Director on re-employment on contract basis in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- in the National Security Council Secretariat with effect from the forenoon of 1st January 2013 till attaining the age of 62 years i.e. upto 01.12.2014 (DoB : 02.12.1952) or until further orders, whichever is earlier.

R. K. JAIN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 31st December 2012

No. A-19011/87/12-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(DD/HQ)/11-UIDAI dated 10.12.2012 and Ministry of Labour & Employment's Office Order No. DGE&T A-19015/02/2006-Admn.II dated 28.12.2012, Shri Rajesh Kumar has assumed the charge of Deputy Director in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f. 28.12.2012 (AN) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on deputation basis for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Director (Estt.)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 14th December 2012

No. A-32012/2/2012-Admn. I(LA)—The President is pleased to appoint Shri B.L. Choudhary, Additional Legal

Adviser (Grade-II of Service cadre of Legal Advisers of the Indian Legal Service), Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, to the grade of Joint Secretary & Legal Adviser (Grade-I of Service cadre of Legal Advisers of the Indian Legal Service), in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- on ad hoc basis w.e.f. the forenoon of the 12th December, 2012 and until further orders.

RAVINDRA KUMAR, Dy. Secy.

No. A-32012/2/2012-Admn. I(LA)—The President is pleased to appoint the following Additional Legal Advisers (Grade-II of Service cadre of Legal Advisers of the Indian Legal Service), Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, to the grade of Joint Secretary & Legal Adviser (Grade-I of Service cadre of Legal Advisers of the Indian Legal Service), in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- w.e.f. the forenoon of the 12th December, 2012 and until further orders.

1. Shri H.P. Chaturvedi;
2. Shri Ramayan Yadav; and
3. Shri Inder Kumar

2. They will be on probation for a period of two years with effect from the forenoon of 12th December 2012. Their probation period may be extended at the discretion of the Competent Authority, if necessary. Their continuance in the grade will be subject to satisfactory completion of the probation and availability of vacancy in the grade of Joint Secy. & Legal Adviser.

RAVINDRA KUMAR, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 8th October 2012

No. K-13025/5/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Sharad Arvind Bobde, Judge of the Bombay High Court, to be the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K-11017/10/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President after consultation with the Chief Justice of India is pleased to transfer Justice Shri Laxmi Kanta Mohapatra, Judge of the High Court, as Judge of the Allahabad High Court and to direct him to assume charge of his office in the Allahabad High Court on or before 22nd October 2012.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 9th October 2012

No. K-11019/3/2012-US.I—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Abhay Manohar Sapre, seniormost Judge of the Chhattisgarh High Court to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 10th October, 2012 consequent upon the retirement of Justice Shri Rajeev Gupta, Chief Justice of the Chhattisgarh High Court.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 6th November 2012

No. K-13017/03/2012-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Gurijala Krishna Mohan Reddy and Justice Shri Kolla Surya Appa Rao, Additional Judges of Andhra Pradesh High Court, to be Judges of that High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective offices.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 7th November 2012

No. K-13026/02/2012-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Justice Kumari R. Mala, (ii) Justice Smt. Aruna Jagadeesan, and (iii) Justice Shri G.M. Akbar Ali, Additional Judges of Madras High Court, to be Judges of Madras High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective offices.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K-13029/02/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Vijender Singh Malik, Additional Judge of the Punjab & Haryana High Court, to be a Judge of the Punjab & Haryana High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 3rd December 2012

No. K-13013/06/2012-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Pinaki Chandra Ghose, Judge of the Andhra Pradesh High Court, to be the Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 20th December 2012

No. K-13029/7/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Amol Rattan Singh, to be an Additional Judge of the Punjab & Haryana High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K-13014/2/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (1) Brijesh Kumar Srivastava-II, (2) Bharat Bhushan, Judicial Officers, for a period of two years, and (3) Zaki Ullah Khan, Judicial Officer for a period upto 04.08.2014 on superannuation, as Additional Judges of Allahabad High Court, in that order of seniority; with effect from the dates they assume charge of their office.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 21st December 2012

No. K-13011/6/2012-US.II (iii)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Vikramajit Sen, Chief Justice of the Karnataka High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

No. K-13011/6/2012-US.II (ii)—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Venkatesh Gowda Gopalagowda, Chief Justice of the Orissa High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

No. K-13011/6/2012-US.II (i)—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri M. Yusuf Eqbal, Chief Justice of the Madras High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th December 2012

No. 14016/13/2011-UTS-I—In exercise of the powers conferred by Clause (I) of Article 239 of the Constitution

of India, the President is pleased to appoint Shri H. Rajesh Prasad, IAS (AGMU : 1995) as Administrator, Union Territory of Lakshadweep with effect from 7th November, 2012, until further orders.

S. K. JAIN, Director (Services)

New Delhi-110001, the 3rd January 2013

No. I-18011/14/2012-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Dhruvajyoti De, IPS (WB-2006), in the Indian Police Service with effect from 18.12.2008.

PRASHANT NIKAM, Director (Police)

New Delhi, the 3rd January 2013

No. I-14013/54/2012-IPS.I—In pursuance of the order dated 23.08.2012 of the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench in O. A. No. 348/HR/2012 filed by Shri Hukum Singh Vs Union of India & Others and in exercise of powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, and in partial modification of earlier notification No. I-14013/54/2012-IPS.I issued on 17.10.2012 notifying the appointment of Shri Hukum Singh from the Select List of 2006, the President is pleased to appoint Shri Hukum Singh (Date of Birth : 02.06.1953), a former member of Haryana Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to Haryana Cadre of IPS, under sub-rule (1) Rule 5 of IPS (Cadre) Rules, 1954.

2. The appointment will take effect from 29-03.2012 i.e. the date when his immediate junior namely Shri Ved Prakash was appointed to the Haryana Cadre of Indian Police Service from the Select List of 2009 in the year-wise Select List of the years 2006 to 2010.

3. In the light of directions of Hon'ble Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench the appointment notified earlier vide I-14013/54/2012-IPS.I on 17.10.2012 for the Select List of 2006 stands modified to the above extent.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 31st December 2012

No. 12/89/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. K. Damayanthi IAS (AP : 93) as Joint Secretary, in the Ministry of Development of North Eastern Region in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of

Rs. 10,000/- for the balance period of her central deputation tenure of five years i.e. upto 2.10.2016 or until further orders, whichever is earlier with effect from 28.12.2012 (F.N.).

DEBASHIS DEY, Under Secy.

The 4th January 2013

No. 12/93/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Bhattacharya as Under Secretary of CSS on ad-hoc basis in Ministry of Development of North Eastern Region w.e.f. 1.1.2013 (F/N) for a period upto 31.05.2013 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

DEBASHIS DEY, Under Secy.

No. 12/92/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri R. S. Indora as Under Secretary of CSS on ad-hoc basis in Ministry of Development of North Eastern Region w.e.f. 1.1.2013 (F/N) for a period upto 31.05.2013 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

DEBASHIS DEY, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 28th December 2012

No. A-23012/2/2008-Cadre—The President is pleased to appoint Shri A. Y. Anand Raj to the post of Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers Service, in the Pay Band-of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- on proforma promotion basis, under zoning scheme for the Select List Year 2011 with effect from the forenoon of 16.11.2012, i.e. the date of promotion of his immediate junior in the grade.

VIJAY KAUSHIK, Under Secy.

New Delhi, the 31st December 2012

No. 14015/19/2012-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to re-notify/notify the Select Lists of State Civil Service Officers of Rajasthan Cadre containing the following names prepared on 26th December, 2012 under Regulation 5(5) and approved on 31.12.2012, under Regulation 7(2) towards filling up of promotion quota vacancies in Rajasthan cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said regulations in

consultation with the State Government for the Review Select Lists of 1993-94, 1994-95 (in compliance of the directions dated 02.11.2007 of the Hon'ble CAT, Jaipur Bench in OA No. 391/2003 filed by Shri M. L. Gupta Vs UoI & Ors. read with similar directions of Hon'ble Tribunal in the matters of Sh. H. C. Sharma, A. K. Bhandari and Jagdish Chandra) and for preparation of the year-wise Select Lists of 1996-97, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011 :—

Review of Select List of year 1993-94

Sl. No.	Name (S/Sh.)	Date of Birth
1.	Jayanti Lal Modi	27.12.47
2.	Karni Singh Rathore	01.01.49
3.	S. S. Bhandari	20.08.36
4.	Prem Dutt Paliwal	02.07.38
5.	Pukhraj Salecha	10.08.39
6.	Dalu Ram Meena (ST)	15.08.41
7.	Keshri Singh	01.07.39
8.	Mool Chand Arya (SC)	10.03.42
9.	K. P. Singhal	01.01.42
10.	K. C. Gupta	20.09.43
11.	J. P. Chandeliya (SC)	13.03.51
12.	R. N. Arvind	03.05.47
13.	K. N. Gupta	01.07.47
14.	M. S. Khan	27.11.47
15.	Mahendra Kumar Surana	05.05.48
16.	K. K. Sabhiki	10.07.41
17.	Subhash Bhargava	06.10.47
18.	K. D. Khan	19.06.38
19.	Babu Lal Jaiman	01.01.48
20.	J. P. Sharma	03.06.46
21.	Devi Ram Jodhawat (SC)	24.04.46
22.	Yad Ram Gaur (SC)	17.03.47
23.	Jagdish Prasad (SC)	05.06.46
24.	Amar Chand Bhatt (SC)	10.08.46
25.	Jagdish Chand	15.04.50

Review of Select List of year 1994-95

Sl. No.	Name (S/Sh.)	Date of Birth
1.	S. S. Tripathi	08.05.41
2.	Gordhan Lal Sharma	17.06.40
3.	Harish Krishniya	28.03.41
4.	Suraj Mal Meena (ST)	20.08.51
5.	Hari Krishan Damore (ST)	28.07.48
6.	S. R. Pratihari (ST)	02.04.47
7.	Ramesh Kumar Jain	12.12.52
8.	Harish Chandra Sharma	02.10.45
9.	Kuldeep Sharma	23.12.50
10.	Ramrakh	09.04.47
11.	Mahavir Singh	05.07.51
12.	Anand Kumar Hemkar	05.06.47
13.	R. S. Gathala	11.6.48
14.	Tara Chand	17.10.47
15.	Rajendra Bhanawat	15.09.52
16.	Kalu Ram Kamlesh (ST)	02.11.42
17.	Arun Kumar Ojha	30.05.44
18.	Ramesh Chand Jain	03.10.46
19.	Chandra Prakash Vyas	03.03.49

Select List of the year 1996-97

1.	Raj Bahadur Singh	08.07.43
2.	Amar Singh	24.04.42
3.	Madan Lal Jain	04.07.45
4.	R. S. Agarwal	07.11.49
5.	Chandra Bhushan Sharma	25.08.49
6.	D. K. Vijay	22.08.48
7.	Naringa Ram Yadav (SC)	12.02.50
8.	Ram Prasad (SC)	15.06.47
9.	Ram Niwas Meena (ST)	17.03.51

Select List of the year 1997

Sl. No.	Name (S/Sh.)	Date of Birth
1.	B. S. Charan	31.07.50
2.	N. K. Jain	29.12.50
3.	N. N. Chaturvedi	05.09.45
4.	Amar Chand Sharma	15.03.47
5.	Ram Khiladi Meena (ST)	01.10.54
6.	Shriram Meena (ST)	11.10.53
7.	Ms. Laxmi Bairwa (SC)	09.08.52
8.	Lal Chand Aswal (SC)	15.09.54
9.	H. P. Barwad (SC)	20.01.47

Select List of the year 1998

1.	A. K. Bhandari	05.06.54
2.	Smt. Pramila Surana	09.07.53
3.	Moti Lal Gupta	05.07.48
4.	K. K. Gupta	02.02.52

Select List of the year 1999

1.	Manmath Kumar	15.04.50
2.	Jugal Kishore Bansal	15.12.49
3.	Smt. Hansa Singh Dev (ST)	08.04.57
4.	Gajendra Singh (ST)	22.09.50
5.	Ashutosh Gupta	19.07.47

Select List of the year 2000

Sh. Badri Lal Meena	18.06.47
---------------------	----------

Select List of the year 2001

1.	R. B. Parmar	03.02.50
2.	C. R. Chaudhary	01.03.48
3.	K. G. Agarwal	01.07.49
4.	C. M. Khatri	15.07.49

Select List of the year 2003

Sl. No	Name (S/Sh.)	Date of Birth
1.	Hemant Shesh	18.12.52
2.	Girdhari Lal Gupta	23.12.52
3.	Sunil Dhariwal	01.07.54

Select List of the year 2005

1.	Dharmendra Bhatnagar	30.09.1955
2.	G. D. Arya (SC)	13.07.1952
3.	Hanuman Singh Bhati	09.01.1956

Select List of the year 2006

1.	Dungar Dan Charan	12.03.1952
2.	Mahaveer Prasad Swami	01.06.1956
3.	Smt. Rajesh Yadav	19.08.1956

Select List of the year 2007

1.	A. K. Sanwaria (SC)	19.02.1956
2.	Dhuda Ram Meena (ST)	10.04.1954
3.	Ajay Singh	01.07.1956
4.	M. S. Kala (SC)	08.01.1959
5.	Mangi Lal Khinchi (SC)	01.10.1953
6.	Sriram Chordiya (SC)	07.07.1953
7.	Suwa Lal (SC)	05.08.1957
8.	Hanuman Sahay Meena (ST)	14.01.1960
9.	Raghuveer Singh Meena (ST)	05.05.1957
10.	B. L. Nawal (SC)	07.09.1955
11.	Narain Lal Meena (ST)	26.01.1962
12.	Ved Prakash (SC)	31.05.1957

Select List of the year 2008

Sl. No.	Name (S/Sh.)	Date of Birth
1.	Sumati Lal Bohra	14.11.1954
2.	Moolchand Meena (ST)	08.07.1954
3.	Anil Kumar Chaplot	29.04.1956
4.	Vinod Ajmera	23.11.1956
5.	Hanumant Singh Bhati	20.09.1957

Select List of the year 2009

1.	Nivedita Mehru	16.07.1958
2.	Sharvan Sahani	06.06.1955

Select List of the year 2010

1.	Basant Kumar Doshi	15.06.1957
2.	Om Prakash Yadav	11.02.1958
3.	Lalit Kumar Gupta	13.03.1959
4.	Madhu Sudan Sharma	24.03.1956
5.	Ratan Lal Lohati	11.11.1957
6.	S. S. Panwar (SC)	12.04.1956
7.	J. C. Desai (SC)	02.02.1958
8.	Ram Niwas (SC)	16.08.1957
9.	B. L. Jatawat (SC)	07.10.1957
10.	P. R. Pandat (SC)	01.01.1959
11.	S. P. Baswal (SC)	30.11.1956
12.	K. C. Verma (SC)	05.12.1960

Select List of the year 2011

1.	S. S. Sohta (SC)	12.02.1959
2.	Vikram Singh Chauhan	27.08.1957
3.	Rekha Gupta	28.09.1959

2. This notification will be subject to the outcome of O.A. No. 810/2012 filed by Shri Bhanwar Lal Kandoi and others Vs UOI and others before Hon'ble CAT, Jaipur Bench.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to re-notify the appointment of the following member of the State Civil Service of Rajasthan, who already stand appointed and allocated to Rajasthan cadre of Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Review Select Lists of 1994-95 with effect from the date mentioned against his name:—

Select List of 1994-95

Sh. Ramesh Kumar Jain	03.12.1999
-----------------------	------------

2. Further, In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Rajasthan to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for preparation of the year-wise Select Lists of 1997, 1998, 1999, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 & 2011 on probation until further orders and to allocate them to Rajasthan cadre of IAS, under Rule 5 (1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List of the year 1997

Sl. No.	Name
	(S/Sh.)
1.	Ram Khiladi Meena (ST)
2.	Shriram Meena (ST)
3.	Lal Chand Aswal (SC)

Select List of the year 1998

1.	A. K. Bhandari
2.	Smt. Pramila Surana

Select List of the year 1999

Name
Smt. Hansa Singh Dev (ST)

Select List of the year 2003

1.	Hemant Shesh
2.	Girdhari Lal Gupta
3.	Sunil Dhariwal

Select List of the year 2005

1.	Dharmendra Bhatnagar
2.	Hanuman Singh Bhati

Select List of the year 2006

1.	Mahaveer Prasad Swami
2.	Smt. Rajesh Yadav

Select List of the year 2007

Sl. No.	Name
	(S/Sh.)
1.	A. K. Sanwaria (SC)
2.	Dhuda Ram Meena (ST)
3.	Ajay Singh
4.	M. S. Kala (SC)
5.	Mangi Lal Khinchi (SC)
6.	Sriram Chordiya (SC)
7.	Suwa Lal (SC)
8.	Hanuman Sahay Meena (ST)
9.	Raghuveer Singh Meena (ST)
10.	B. L. Nawal (SC)
11.	Narain Lal Meena (ST)
12.	Ved Prakash (SC)

Select List of the year 2008

Sl. No.	Name
	(S/Sh.)
1.	Sumati Lal Bohra
2.	Moolchand Meena (ST)
3.	Anil Kumar Chaplot
4.	Vinod Ajmera
5.	Hanumant Singh Bhati

Select List of the year 2009

1.	Nivedita Mehru
2.	Sharvan Sahani

Select List of the year 2010

1.	Basant Kumar Doshi
2.	Om Prakash Yadav
3.	Lalit Kumar Gupta
4.	Madhu Sudan Sharma
5.	Ratan Lal Lohati
6.	S. S. Panwar (SC)
7.	J. C. Desai (SC)
8.	Ram Niwas (SC)
9.	B. L. Jatawat (SC)
10.	P. R. Pandat (SC)
11.	S. P. Baswal (SC)
12.	K. C. Verma (SC)

Select List of the year 2011

1.	S. S. Sohta (SC)
2.	Vikram Singh Chauhan
3.	Rekha Gupta

2. This notification will be subject to the outcome of O.A. No. 810/2012 filed by Shri Bhanwar Lal Kandoi and others Vs UOI and others before Hon'ble CAT, Jaipur Bench.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/24/2012-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of West Bengal containing the following names prepared on 21st September 2012 under Regulation 5(5) and approved on 24.12.2012, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in West Bengal cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2011 :—

Select List 2011 (Against vacancies arisen between 1.1.2011 to 31.12.2011)

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Sh.)	
1.	Sumit Halder	19.11.1957
2.	Swapan Kr. Das	27.06.1959
3.	Mriganka Sekhar Kar	05.12.1958
4.	Smt. Runu Ghosh	04.8.1959
5.	Pritish Ch. Sarkar (SC)	11.12.1959
6.	Tapan Kanti Ganguli	19.06.1959
7.	Nityananda Mandal (SC)	01.11.1960
8.	Smt. Pritha Sarkar	24.11.1962

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/24/2012-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of West Bengal to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2011, on probation until further orders and to allocate them to the West Bengal Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2011 (Against vacancies arisen between 1.1.2011 to 31.12.2011)

Sl. No.	Name
1	2
	(S/Shri)
1.	Sumit Halder
2.	Swapan Kr. Das

1	2
	(S/Sh.)
3.	Mriganka Sekhar Kar
4.	Smt. Runu Ghosh
5.	Pritish Ch. Sarkar (SC)
6.	Tapan Kanti Ganguli
7.	Nityananda Mandal (SC)
8.	Smt. Pritha Sarkar

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/21/2012-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Tamil Nadu containing the following names prepared on 26th September 2012 under Regulation 5(5) and approved on 17.12.2012, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Tamil Nadu under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2011 (Against the vacancies arisen between 1.1.2011 to 31.12.2011):—

Select List of 2011

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Sh.)	
1.	Smt. G. Latha	10.09.1971
2.	Smt. E. Sundaravalli	03.05.1973
3.	E. Saravanelraj	26.12.1966
4.	Dr. N. Subbaiyan (SC)	09.05.1973
5.	V. Dakshinamoorthy	12.05.1967

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/21/2012-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Tamil Nadu to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2011, (Against the vacancies arisen between 1.1.2011 to 31.12.2011) on probation until further orders and to allocate them to the

Tamil Nadu Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2011

Sl. No.	Name
	(S/Sh.)
1.	Smt. G. Latha
2.	Smt. E. Sundaravalli
3.	E. Saravanelraj
4.	Dr. N. Subbaiyan (SC)
5.	V. Dakshinamoorthy

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/01/2012-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Andhra Pradesh containing the following names prepared on 5th November, 2012 under Regulation 5(5) and approved on 21.12.2012, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Andhra Pradesh Cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select Lists of 2010 and 2011 :—

Select List of 2010 (Against vacancies arisen between 1.1.2010 to 31.12.2010)

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Sh.)	
1.*	D. Venkateswara Rao (ST)	24.12.1961
2.	M. Rama Rao (ST)	11.06.1960
3.	M. Champalal (ST)	27.08.1962
4.	K. Sarada Devi (ST)	15.07.1965

* The name of the officer at S. No. 1 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

Select List of 2011 (Against vacancies arisen between 1.1.2011 to 31.12.2011)

Sl. No.	Name	Date of Birth
0A#*	D. Venkateswara Rao (ST)	24.12.1961
1.	Smt. B. Bharathi Lakpathi Naik (ST)	12.07.1966
2.	J. Murali	05.08.1959

1	2	3
	(S/Sh.)	
3.	Ch. Sridhar (ST)	08.02.1969
4.	M. V. Seshagiri Babu	14.10.1970
5.	B. Vijiendra (SC)	07.07.1971
6.	D. Muralidhar Reddy	01.07.1969
7.	B. Laxmi Kantham	01.07.1959
8.	K. Kanna Babu	05.06.1967
9.	S. Satyanarayana	01.07.1965
10.	K. Y. Naik (ST)	04.03.1962
11.	P. Venkata Rami Reddy	21.09.1962
12.	K. Surendra Mohan	26.07.1970

The name of officer at Sl. No. 0A has been included in the Select List in addition to the normal zone of consideration in terms of 2nd proviso to Regulation 5(5) of the Promotion Regulations.

* The name of the officer at S. No. 0A has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/01/2012-AIS (I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Andhra Pradesh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select Lists of 2010 and 2011 on probation until further orders and to allocate them to the Andhra Pradesh Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2010 (Against vacancies arisen between 1.1.2010 to 31.12.2010)

Sl. No.	Name
	(S/Sh.)
1.	M. Rama Rao (ST)
2.	M. Champalal (ST)
3.	K. Sarada Devi (ST)

Select List of 2011 (Against vacancies arisen between 1.1.2011 to 31.12.2011)

Sl. No.	Name
1	2
	(S/Sh.)
1.	Smt. B. Bharathi Lakpathi Naik (ST)
2.	J. Murali
3.	Ch. Sridhar (ST)
4.	M. V. Seshagiri Babu
5.	B. Vijiendra (SC)
6.	D. Muralidhar Reddy
7.	B. Laxmi Kantham
8.	K. Kanna Babu
9.	S. Satyanarayana
10.	K. Y. Naik (ST)
11.	P. Venkata Rami Reddy
12.	K. Surendra Mohan

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

New Delhi, the 2nd January 2013

No. 14012/08/2012-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Pranav Kumar, member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Bihar of 2008 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 22.02.2012.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 2nd January 2013

No. 19011/07/2012-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint Shri Raju Goswami, Private Secretary of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) on regular basis in the Select List of Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS of the Select List Year 2010 under Zoning Scheme for Seniority Quota (SQ) in the Department of Pension and Pensioners' Welfare with effect from the 31.08.2012 (AN).

S. P. KAKKAR, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 26th December 2012

No. DI/II/460/CF-10/2012—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Purshotam Koramangala Jayaram as Honorary Consul of the Republic of Macedonia in Bengaluru with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Purshotam Koramangala Jayaram comprises the State of Karnataka with the seat in Bengaluru.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 7th December 2012

No. 90 of 2012 (F. No. A.32014/02/2012-Ad.IA)—The President is pleased to appoint the following regular Private Secretaries of CSSS as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS on regular basis in the Department of Revenue w.e.f. 22nd November, 2012 in accordance with DoP&T's O.M. No. 3/4/2012-CS.II (A) dated 16.11.2012 :—

Sl. No.	Sl. No. in DOP list	Name
1.	18	Sh. Chander Prakash Sharma
2.	82	Sh. Sansar Chand Birdi

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 3rd December 2012

No. 117 (F. No. A.19012/20/2012-Ad.I)—Consequent upon his promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) on ad hoc basis vide Department of Personnel and Training's Order No. 4/14/2011-CS-I(D) dated 12th November, 2012, the President is pleased to appoint Shri M. S. Sharma, an officer belonging to Central Secretariat Service as Deputy Secretary in this Department w.e.f. 21.11.2012 (FN) and until further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment is subject to the final outcome of the pending Writ Petition No. 4097/2011 (Arun Gaur Vs. Garima Singh & Ors.), W. P. No. 4616/2011 (V. S. Pandey & Ors. Vs. Garima Singh & Ors.), W. P. No. 7619/2011 (UPSC Vs. Garima Singh & Ors.), W. P. No. 2176/2012 (Union of India Vs. Garima Singh & Ors.), and other connected Writ Petitions No. W. P. (C) 2523/2012 (Union of India Vs. Anant Kishore Saran), W. P. (C) 2524/2012 (Union of India Vs. Shersha and Anr.), W. P. (C) 2525/2012 (Union of India Vs. Syed

Ekram Rizvi and Anr.), W. P. (C) 2526/2012 (Union of India Vs. Sandeep Kumar Gupta), W. P. (C) 2527/2012 (Union of India Vs. Soumya Chattopadhyay and Anr.) in the High Court of Delhi and SLP(C) No. 9653/2012 (Syed Ekram Rizvi and Ors. Vs. Union of India & Ors.) in the Supreme Court and also any other order by any competent court in any of the connected matters, apart from the above.

- (ii) The ad hoc appointment shall not bestow on the incumbent any claim for regular appointment to the grade.
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- (iv) The appointment on ad hoc basis shall be effective from the date of assumption of charge of the post of Deputy Secretary in the Minisry/Department to which the officer has been allocated.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

No. 118 (F. No. A.19012/19/2012-Ad.I)—Consequent upon his promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) on ad hoc basis vide Department of Personnel and Training's Order No. 4/14/2011-CS-I(D) dated 12th November, 2012, the President is pleased to appoint Shri Kabindra Joshi, an officer belonging to Central Secretariat Service as Deputy Secretary in this Department w.e.f. 21.11.2012 (FN) and until further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment is subject to the final outcome of the pending Writ Petition No. 4097/2011 (Arun Gaur Vs. Garima Singh & Ors.), W. P. No. 4616/2011 (V. S. Pandey & Ors. Vs. Garima Singh & Ors.), W. P. No. 7619/2011 (UPSC Vs. Garima Singh & Ors.), W. P. No. 2176/2012 (Union of India Vs. Garima Singh & Ors.), and other connected Writ Petitions No. W. P. (C) 2523/2012 (Union of India Vs. Anant Kishore Saran), W. P. (C) 2524/2012 (Union of India Vs. Shersha and Anr.), W. P. (C) 2525/2012 (Union of India Vs. Syed Ekram Rizvi and Anr.), W. P. (C) 2526/2012 (Union of India Vs. Sandeep Kumar Gupta), W. P. (C) 2527/2012 (Union of India Vs. Soumya Chattopadhyay and Anr.) in the High Court of Delhi and SLP(C) No. 9653/2012 (Syed Ekram Rizvi and Ors. Vs. Union of India & Ors.) in the Supreme Court and also any other order by any competent court in any of the connected matters, apart from the above.
- (ii) The ad hoc appointment shall not bestow on the incumbent any claim for regular appointment to the grade.

- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- (iv) The appointment on ad hoc basis shall be effective from the date of assumption of charge of the post of Deputy Secretary in the Minisry/Department to which the officer has been allocated.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 5th December 2012

No. 120 (F. No. A.19012/21/2012-Ad.I)—Consequent upon his promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) on ad hoc basis vide Department of Personnel and Training's Order No. 4/14/2011-CS-I(D) dated 12th November, 2012, the President is pleased to appoint Shri O. P. Joshi, an officer belonging to Central Secretariat Service as Deputy Secretary in this Department w.e.f. 29.11.2012 (FN) and until further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment is subject to the final outcome of the pending Writ Petition No. 4097/2011 (Arun Gaur Vs. Garima Singh & Ors.), W. P. No. 4616/2011 (V. S. Pandey & Ors. Vs. Garima Singh & Ors.), W. P. No. 7619/2011 (UPSC Vs. Garima Singh & Ors.), W. P. No. 2176/2012 (Union of India Vs. Garima Singh & Ors.), and other connected Writ Petitions No. W. P. (C) 2523/2012 (Union of India Vs. Anant Kishore Saran), W. P. (C) 2524/2012 (Union of India Vs. Shersha and Anr.), W. P. (C) 2525/2012 (Union of India Vs. Syed Ekram Rizvi and Anr.), W. P. (C) 2526/2012 (Union of India Vs. Sandeep Kumar Gupta), W. P. (C) 2527/2012 (Union of India Vs. Soumya Chattopadhyay and Anr.) in the High Court of Delhi and SLP(C) No. 9653/2012 (Syed Ekram Rizvi and Ors. Vs. Union of India & Ors.) in the Supreme Court and also any other order by any competent court in any of the connected matters, apart from the above.
- (ii) The ad hoc appointment shall not bestow on the incumbent any claim for regular appointment to the grade.
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- (iv) The appointment on ad hoc basis shall be effective from the date of assumption of charge of the post of Deputy Secretary in the Ministry/Department to which the officer has been allocated.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 2nd January 2013

No. 11012/1/2011-IES—The President is pleased to appoint the following candidates who were successful in the Indian Economic Service Examination 2011 conducted by the Union Public Service Commission, to the Indian Economic Service in the Junior Time Scale in the Pay Scale of Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/-, under Rule 6(a) of the IES Rules, 2008, as amended, on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of joining
1.	Shri Kanishk Sharma	17.12.2012 (F/N)
2.	Ms. Kriti Garg	17.12.2012 (F/N)
3.	Ms. Swati Singla	17.12.2012 (F/N)
4.	Shri Laysang Angmu Lama	17.12.2012 (F/N)
5.	Shri Vaibhav Rundwal	17.12.2012 (F/N)
6.	Shri Rahul Singh	17.12.2012 (F/N)
7.	Shri Ajit Kumar Ranjan	17.12.2012 (F/N)
8.	Shri Satheesh Kumar T.	17.12.2012 (F/N)
9.	Shri Rishi Kant	17.12.2012 (F/N)
10.	Shri Dharmendra Kumar	17.12.2012 (F/N)
11.	Ms. Mamta Meena	17.12.2012 (F/N)

BIDISHA CHAUDHURI, Dir. (IES)

New Delhi, the 24th December 2012

No. A-12011/6/2009-Admn.II—In pursuance of O.M. No. 6/11/2012-CS.I(S), dated 23.08.2012 of Department of Personnel & Training and O.M. No. A-32015/02/2012-CAS, dated 23.10.2012 of Cadre Administrative Section, Department of Expenditure, the President is pleased to appoint Smt. Abha Garg, Assistant of CSS Cadre, as Section Officer on ad hoc basis w.e.f. the forenoon of 17.12.2012 in the Pay Band of PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs initially upto 31.12.2012 or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc appointments of Smt. Abha Garg, Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions :—

- (i) The period of ad hoc promotion would be upto 31.12.2012 or till the regular Section Officers is made available, whichever is earlier.

- (ii) Ad hoc appointments, being a stopgap arrangement, shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of CSS.
- (iii) Ad hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade is available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in any of these two categories, he will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular officer from the date he (regular Section Officer) joins duty.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 26th December 2012

No. A. 12011/5/2012-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/9/2012-CS.I (U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint Shri Amarjeet Singh (CSL:7502), Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade I (Under Secretary) of CSS purely on ad hoc basis in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 29th November, 2012 for a period upto 31.05.2013.

2. The aforesaid appointment is subject to the conditions mentioned in the Department of Personnel & Training Order referred to above.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 28th December 2012

No. A. 19011/22/2012-Admn.II—The President is pleased to appoint Ms. Sigy Thomas Vaidhyan, IAS (TN:2002) as Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the afternoon of 26th December, 2012 for the balance period of her central deputation tenure i.e. upto 09.08.2015 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 28th December 2012

No. A-19012/2/2008-DRT—Shri Debi Prasad Misra, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Ranchi will demit the charge of Presiding Officer with effect from 31st December, 2012 (A.N.) on completion of 5 years tenure at the post.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 3rd January 2013

No. A-38015/18/2012-Ad.I—Shri Girish Kumar Gavane, Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government service with effect from the afternoon of the 31st December, 2012.

2. His name will be struck off from the rolls of this Department from that date.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

New Delhi, the 7th January 2013

No. A-11019/3/2012-EG—The President is pleased to appoint Shri Ashwani Kumar Srivastava of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer on deputation basis in the office of the Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, Allahabad in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay Rs. 6,600/-) with effect from 30.10.2012 (F.N.) and until further orders.

ANIL SHARMA, Under Secy.

CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS

New Delhi-110003, the 27th December 2012

No. A-32013/8/2012/Gr.A/2857-69—The President is pleased to appoint, on probation, the following Sr. Accounts Officers (Group 'B') to the Junior Time Scale of ICAS (Group 'A') in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (pre-revised) (New PB-3 with Grade Pay of Rs. 5,400/-) in terms of Indian Civil Accounts Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2006, as amended from time to time, with effect from 1st January, 2013 (FN) :—

Sl. No.	Name
1.	Sh. H. Paul Sekhar
2.	Sh. Hari Prakash
3.	Sh. Shailen Karmakar
4.	Sh. S. S. Bhowmick
5.	Sh. T. R. Chawla
6.	Sh. R. K. Dabas

2. The period of probation shall be two years from 1st January, 2013.

C. MAHESHWARAN, Dy. Controller Genl. of A/cs

DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 28th December 2012

No. 9/8/2012-Admn.—In pursuance of Order No. 21/1/2012-CS.I(D), dated 26th December, 2012 of the Department of Personnel & Training, the President is pleased to appoint Ms. Anita Chauhan as Joint Secretary (in-situ) in the Department of Disinvestment in the Scale of Pay Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- (PB-4), with effect from the afternoon of 27th December, 2012 i.e. the date of her assuming the charge of the post in the Department of Disinvestment.

ASHISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 21st December 2012

No. A-12023/06/2012-Ad.I—The President is pleased to appoint Dr. Amandeep Singh, IRS (C&CE:1997) as Private Secretary to the Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Corporate Affairs (Shri Sachin Pilot) in the Pay Band of PB-4, Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- w.e.f. the afternoon of 29th October, 2012.

2. The appointment of Dr. Amandeep Singh is on 'lateral shift' basis in the Ministry of Corporate Affairs for the balance period of his tenure as Private Secretary upto 04.09.2013 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to be Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

KSHITISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 26th December 2012

No. A-32013/1/2012-Cadre—The President is pleased to appoint the following ad hoc Grade-I Officers (Under Secretary) of Central Secretariat Service as regular Grade-I officers (Under Secretaries) of the CSS cadre of Supply Division, against the Select Lists mentioned against their names :—

Sl. No.	CSL No.	Name	Date of Birth	Select List Year
		S/Shri		
1.	6482	Rajeev Sharma	31.08.1962	2009
2.	6662	B. Thawng Sian Dong	01.01.1971	2009
3.	6593	Avik Basu	23.01.1964	2010
4.	6643	Sanjoy Shankar	31.07.1962	2010
5.	6707	Ajay Kumar	11.06.1967	2010
6.	6731	Jai Narain	20.09.1965	2010
7.	6834	Ram Chandra Das	11.02.1963	2010

2. The seniority of the officers included in the aforesaid Select Lists, will be in the same order in which their names have been arranged, irrespective of actual dates of their appointment to the Grade I. The appointment of officers, included in the aforesaid Select Lists of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in O.A. No. 611/2012 titled "P. S. Bhandari & Ors. Vs. UoI & Ors. in terms of CAT, PB, New Delhi's interim order dated 24.02.2012, and any other order by any competent court in any of the connected matters.

ANURAG SAXENA, Jt. Secy.

New Delhi, the 21st December 2012

No. A-38013/1/2012-Cadre—On attaining the age of superannuation, Shri Lalan Das PRA, Director (CSL No. 3665; DoB: 05.12.1952) of CSS cadre of Supply Division, retires from Government service with effect from the afternoon of December 31, 2012.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

The 27th December 2012

No. A-32014/4/2012-Cadre—The President is pleased to appoint Shri Parimal Karan (CSL No. 7830; DoB: 02.05.1967), to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service, in the Department of Commerce (Supply Division), with effect from the afternoon of December 21, 2012, in terms of DoP&T's Order No. 5/9/2012-CS.I (U), dated December 6, 2012.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

The 2nd January 2013

No. A-32015/7/2012-Cadre—The President is pleased to appoint Shri P. K. Madan, Private Secretary (ad hoc) of CSSS as regular Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-) in the Department of Commerce (Supply Division) for the Select List Year 2010 against the Seniority Quota w.e.f. the afternoon of 31.12.2012.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 31st December 2012

No. A-15012/1/2005-Admn./Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012/CS-I(U) dated 06.12.2012, Shri Sanjib Bhattacharya (CSL No. 7807), Section Officer in the Ministry of Defence, is appointed to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Coal purely on ad-hoc basis w.e.f. 18.12.2012 (F/N) upto 31.05.2013 or till the post is filled up on regular

basis, or until further orders whichever is earlier, subject to conditions mentioned in the DoP&T's Order dated 06.12.2012 referred above.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES

New Delhi, the 20th December 2012

No. A-22011/7/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Chaube to Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on ad-hoc basis in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the afternoon of 10th December, 2012 for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment of Shri Chaube to Selection Grade of CSS is subject to the conditions stipulated in para 2 of Department of Personnel and Training's Order No. 4/14/2011-CS-I(D) dated 12.11.2012.

L. HAOKIP, Dy. Secy.

The 1st January 2013

No. A-18011/131/2011-Estt.—The President is pleased to relieve Shri Dinesh Singh, IAS (UP : 1982) who relinquished charge of the post of Joint Secretary in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises in the forenoon of 1st January, 2013 on his appointment as Additional Secretary in the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

L. HAOKIP, Dy. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC
DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 3rd January 2013

No. A-32012/1/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 6/11/2012-CS.I(S) dated 07.12.2012 and the Ministry of Water Resources Office Order No. 4/7/2010-Admn. (OO No. 1248/2012), the President is pleased to appoint Shri Prem Chand, a regular Assistant of CSS Cadre in the Ministry of Water Resources as Section Officer of CSS Cadre in the Department of Consumer Affairs on ad-hoc basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 28th December, 2012 to 31st December, 2012 or until further orders, whichever is earlier.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

The 4th January 2013

No. A-12011/2/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/4/2011-CS.I(D) dated

14th December, 2012, the President is pleased to appoint Shri Robin Chatterjee, Under Secretary of Grade-I of CSS as Deputy Secretary of CSS purely on ad-hoc basis in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/-, in the Department of Consumer Affairs with effect from the afternoon of 31st December, 2012 initially for a period of one year or until further order, whichever is earlier.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 28th December 2012

No. A-38012/6/2012-SRA—Shri K. L. Kharadi, Deputy Director (S&R) General Central Services of Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution stands retired from Government Service voluntarily with effect from the forenoon of 1st January, 2013.

R. C. MANOCHA, Under Secy.

New Delhi, the 5th November 2012

No. A-32013/1/2010-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Ram Chandra, Section Officer of CSS to the post of Under Secretary of CSS on ad-hoc basis in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 01.11.2012 in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay).

2. The appointment of Shri Ram Chandra, Section Officer to the Grade of Under Secretary on ad-hoc basis is subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters from the OA No. 1083/2007.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

No. A-32013/1/2010-E.I.—The President is pleased to appoint Smt. Indira. M, Section Officer of CSS to the post of Under Secretary of CSS on ad-hoc basis in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 30.10.2012 in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay).

2. The appointment of Smt. Indira. M, Section Officer to the Grade of Under Secretary on ad-hoc basis is subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters from the OA No. 1083/2007.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

The 18th December 2012

No. A-11011/1/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Prashant Trivedi, IAS (UP : 89) as Joint Secretary in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 18th December, 2012 in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

No. A-32013/1/2010-E.I.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.I (U) dated 6.12.2012, the President of India is pleased to appoint Shri O. P. Bachhety, Section Officer of CSS to the post of Under Secretary of CSS on ad-hoc basis in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 07.12.2012 in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay).

2. The appointment of Shri O. P. Bachhety, Section Officer to the Grade of Under Secretary on ad-hoc basis is subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters from the OA No. 1083/2007.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 21st December 2012

No. A-19013/02/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Sh. Sampath Narayanan, Under Secretary of Central Secretariat Service (CSS) Cadre of Ministry of Power as Selection Grade Deputy Secretary of CSS Cadre in the Department of Scientific & Industrial Research in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 7,600/- on ad hoc basis w.e.f. 21.12.2012 (A.N.) and until further orders.

2. The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade and the appointment can be terminated at any point of time without giving any reasons therefore.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

The 31st December 2012

No. A-12023/01/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Vandana Kalia to the post of Scientist 'D' in the Department of Scientific & Industrial Research in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of the

31st December, 2012, consequent upon her selection to the post through a Direct Recruitment process. Her appointment will be governed under the New Pension Scheme, Government of India.

2. She will be on probation for a period of one year.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 30th October 2012

No. A-19011/12/2012-P.II (.)—The President is pleased to appoint Dr. Raj Nath Pandey (ISS : 1980) as Statistical Adviser (SAG in the Pay Band-IV Rs. 37,400—67,000/- with the Grade Pay of Rs. 10,000/-) in the Ministry of Environment and Forests against the post vacated by Sh. Nil Kanth Gosh in pursuance of Ministry of Statistics and Programme Implementation Order No. 12015/03/2012-ISS dated 4.10.2012 and Ministry of Tourism relieving Order No. A-35018/06/2007-Admn.I dated 11.10.2012, with effect from the forenoon of 16.10.2012 and until further orders.

M. K. RAI, Under Secy.

New Delhi-110003, the 26th November 2012

No. A-12012/04/2005.P.II (.)—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar (CSL No. 7481), Section Officer of the Ministry of Chemical & Fertilizers, to Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on adhoc basis in Pay Band-III (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the afternoon of 14th November, 2012 until further orders, in pursuance of the Department of Personnel and Training Order No. 5/9/2012-CS-I (U) dated 30th October, 2012.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions:

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of CSS;
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) In case the officer has not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for CSS, he will have to undergo the aforesaid training as per nominations made by the Department of Personnel & Training.
- (iv) The ad hoc promotion of the officer shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 1st January 2013

No. A-12025/18/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Azaz Akhtar Siddiqui to the post of Assistant Professor of Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 11.06.2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/67/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Prajwala Gupta to the post of Assistant Professor of Pathology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 24.09.2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110011, the 2nd January 2013

No. A-12025/218/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Kadeeja N. S. in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 20th May, 2010 until further orders. Dr. Kadeeja N. S. is posted as Medical Officer at Union Territory of Lakshadweep. She will be on probation for a period of two years.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 28th December 2012

No. A-32013/01/2012-Estt.-I—Consequent on inclusion of his name in the Select List of Principal Secretary Grade of CSSS for the year 2011 vide DoPT's O.M. No. 3/4/2012-CS.-II (A) dated 16th November 2012, the President is pleased to appoint Shri T. V. Paulose to the Principal Private Secretary grade of CSSS on regular basis with effect from the forenoon of 27th December 2012 in the cadre of Department of Health and F.W.

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 23rd November 2012

No. 32013/01/2012-Estt. I—The President is pleased to appoint the following Section Officers of CSS as Under

Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 6,600/- on purely 'ad hoc' basis with effect from the forenoon of the dates given against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Department where was working	C.S.L. No.	Date of Appointment
1.	S/Shri/Ms. Kamal Arora	Department of Commerce	7355	21.11.2012
2.	Ganesh Singh	Department of Commerce	7319	21.11.2012

2. The promotions to Grade I (Under Secretary) of CSS are purely on 'ad hoc' basis for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier. The aforesaid ad hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS.
- (ii) Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- (iv) The officers, who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for the CSS, will have to undergo the aforesaid training as per nomination made by this Department.
- (v) The ad hoc promotion of officers shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any Competent Court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 4th December 2012

No. 32013/01/2012-Estt. I—The President is pleased to appoint Shri A. K. Vashist, Section Officer of CSS as Under Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 6,600/- on purely 'ad hoc' basis with effect from the forenoon of 23rd November, 2012.

2. The promotions to Grade I (Under Secretary) of CSS are purely on 'ad hoc' basis for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis, or until further

orders, whichever is earlier. The aforesaid ad hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS.
- (ii) Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- (iv) The officers, who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for the CSS, will have to undergo the aforesaid training as per nomination made by this Department.
- (v) The ad hoc promotion of officers shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any Competent Court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

K. SANJAYAN, Under Secy.

New Delhi, the 20th December 2012

No. 2-4/2012-SD.V—The President is pleased to appoint Dr. R. R. Hanchinal, Vice Chancellor, University of Agricultural Sciences, Dharwad, Karnataka as Chairperson, Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority in the Scale of Pay of Rs. 80,000/- (Fixed) on contract basis for a period of five years with effect from the date of assumption of charge of the post or till he attains the age of 65 years or until further orders, whichever is the earliest.

GORELAL DEWAKER, Asstt. Commissioner (Seeds)

New Delhi, the 24th December 2012

No. 38013/15/2012-Estt.I—Shri Dibyendu Mukhopadhyay, Section Officer in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2012 on attaining the age of superannuation.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

No. 38013/16/2012-Estt.I—Shri Waseem Ahmad Khan, Section Officer in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2012 on attaining the age of superannuation.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

The 31st December 2012

No. 38013/17/2012-Estt.I—Shri Praveen Kumar Bhatia, Private Secretary in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2012 on attaining the age of superannuation.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 28th December 2012

No. 6-2/2012-INM—The President is pleased to appoint Dr. Krishan Chandra, Regional Director in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 7,600/-), GCS, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial in National Centre of Organic Farming, (NCOF), Ghaziabad, a Subordinate office under the Department of Agriculture & Cooperation, to the post of Director in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 8,700/-), GCS, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial in NCOF, on promotion basis with effect from forenoon of 20th November, 2012 and until further orders.

BHERAV DUTT, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 26th December 2012

No. A-19011/35/2012-Admn.I—Consequent upon his promotion to the Senior Administrative Grade (SAG) and his posting in this Department vide Ministry of Statistics and Programme Implementation's Office Order No. 12016/3/SAG/2011-ISS dated 14.12.2012, the President is pleased to appoint Shri O. P. Misra as Deputy Director General in the Scale of Pay PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + 10,000/- (GP) w.e.f. the forenoon of 18.12.2012 in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

R. S. JAYAL, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 10th December 2012

No. A-19011/10/2008-E.I—The President is pleased to include the name of Shri S. K. Nanda (SO Select List Year 1995) and Shri Sanjai Bajpai (SO Select List Year 1996), who are holding the post of Under Secretary on ad hoc basis in this Ministry respectively w.e.f. 18.07.2008 and 22.09.2010, in the Select List Year 2009 of Grade-I Under Secretary of Central Secretariat Service with immediate effect. Their approved service in the grade of Under Secretary shall commence w.e.f. 01.07.2009.

ROHIT MATHUR, Dir.

New Delhi-110049, the 5th December 2012

No. A-22020/1/2011-E-I—The President is pleased to appoint Dr. D. K. Singh, Director (LARRDIS), Lok Sabha

Secretariat as Officer on Special Duty (OSD) to Hon'ble Minister (Agri. & FPI) (Sh. Sharad Pawar) in the Pay Structure of PB-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/- w.e.f. 05.11.2012 (F/N) till May 2014 or for a Co-terminus period with the term of Minister (Agri. & FP) (Sh. Sharad Pawar) whichever is earliest.

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

The 1st January 2013

No. A-19011/22/2012-Estt.I—The President is pleased to appoint Mohd. Rehan Zaheer, a regular Section Officer of Central Secretariat Service as Grade-I Under Secretary on ad hoc basis in the revised Pay Structure of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Ministry of Food Processing Industries initially for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. Mohd. Rehan Zaheer has deemed to have joined as Under Secretary (ad hoc) in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 30.10.2012 (F/N) (i.e. w.e.f. date of joining of his junior Shri R. Raja Kannu (CSL No. 7527 in Department of Commerce).

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 1st January 2013

No. A-19011/10/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Neerja, IAS (HY:1993) as Joint Secretary in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Ministry of Panchayati Raj w.e.f. the forenoon of 31st December, 2012 or until further orders.

G. S. CHITRA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 11th December 2012

No. F.15-2470/2010-E.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Communication No. 6/55/2012-EO(SM-I) dated 5th December, 2012, Shri Pramod Kumar Tiwari, IAS (AM:91), Director in the Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development is relieved from this Ministry w.e.f. 11.12.2012 (F.N.) to join the post of Joint Secretary in the Department of Administrative Reforms and Public Grievances for the balance period of his central deputation tenure of five years i.e. upto 29.04.2014.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 28th December 2012

No. 2-5/84-Admn./CHD—Upon attaining the age of superannuation, Dr. B. R. Prasad, Deputy Director (L), Central Hindi Directorate, R. K. Puram, New Delhi shall stand retired from Government Service w.e.f. 31.12.2012 (A.N.).

PAWAN MEHTA, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th November 2012

No. 5-9/2012-Admn.—Consequent on being nominated vide DoPT's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint the following regular Section Officers of Central Secretariat Service to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- purely on ad hoc basis with effect from the dates mentioned against their names for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	CSL No.	Date of Joining
1.	Shri Samir Sinha	7199	02.11.2012 (FN)
2.	Shri B. B. Baseshankar	7536	30.10.2012 (FN)

2. The appointment is subject to the terms and conditions in the order mentioned above.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 29th November 2012

No. 5-9/2012-Admn.—Consequent on being nominated vide DoPT's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint Shri Sudesh Kumar, a regular Section Officer of Central Secretariat Service to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Ministry of Women and Child Development purely on ad hoc basis for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier with effect from 08.11.2012 (FN).

2. The appointment is subject to the terms and conditions in the order mentioned above.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 13th December 2012

No. 5-9/2012-Admn.—Consequent on being nominated vide DoPT's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint Shri Ram Prasad, a regular Section Officer of Central Secretariat Service to

Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Ministry of Women and Child Development purely on ad hoc basis for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier with effect from 21.11.2012 (FN).

2. The appointment is subject to the terms and conditions in the order mentioned above.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 17th December 2012

No. 5-9/2012-Admn.—Consequent upon inclusion of her name to the grade of Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Select List for the year 2010 (Part) vide DoPT's OM No. 3/4/2012-CS-II(A) dated 16th November, 2012, the President is pleased to appoint Ms. K. S. Kanthimathi, a regular Private Secretary (PS) to the grade of Principal Private Secretary (PPS) on regular basis in the Pay Band PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the CSSS cadre of Ministry of Women and Child Development with effect from 16.11.2012 (FN).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

New Delhi-110001, the 21st November 2012

No. 12014/12/2012-BC-III—Consequent upon the approval of the Competent Authority, the President is pleased to extend the tenure of Shri A. A. Naqvi as Managing Director of the National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) with effect from 04.11.2012 till his superannuation i.e. 31.10.2014 or until further orders, whichever is earlier.

SUREKHA SAHU, Dir. (BC-III)

New Delhi-110001, the 28th December 2012

No. 17016/62/2011-SCD-VI—The President is pleased to appoint Smt. P. Grija as Director in the National Commission for Scheduled Castes, Ministry of Social Justice and Empowerment with effect from the forenoon of 11.10.2012 i.e. the date of his assumption of charge on deputation basis for a period of 04 years, the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

M. A. MURALEEDHARAN, Dy. Secy.

No. 17016/62/2011-SCD-VI—The President is pleased to appoint Sh. D. Venkatesan as Director in the National Commission for Scheduled Castes, Ministry of Social Justice

and Empowerment with effect from the forenoon of 05.10.2012 i.e. the date of his assumption of charge on deputation basis for a period of 04 years, the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

M. A. MURALEEDHARAN, Dy. Secy.

No. 17016/62/2011-SCD-VI—The President is pleased to appoint Sh. Rajib Bhattacharya as Director in the National Commission for Scheduled Castes, Ministry of Social Justice and Empowerment with effect from the forenoon of 19.10.2012 i.e. the date of his assumption of charge on deputation basis for a period of 04 years, the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

M. A. MURALEEDHARAN, Dy. Secy.

No. 17016/62/2011-SCD-VI—The President is pleased to appoint Sh. D. Hanumantharaya as Director in the National Commission for Scheduled Castes, Ministry of Social Justice and Empowerment with effect from the forenoon of 05.10.2012 i.e. the date of his assumption of charge on deputation basis for a period of 04 years, the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

M. A. MURALEEDHARAN, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 21st December 2012

No. A-12034/8/2012.Estt.II—The President is pleased to appoint Shri Bhukya Srinivas JTO, BSNL, A. P. as 1st PA (Pay Band-2, Grade Pay-4,800/-) in the Office of the Hon'ble Minister of State for Social Justice and Empowerment (Shri P. Balram Naik) w.e.f. 17.12.2012 (F.N.) on co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

The 26th December 2012

CORRIGENDUM

No. A-12022/01/2010.Estt.II—In partial modification of this Ministry's Notification of even No. dated 04.10.2012, para 1 is revised as under :—

"In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 3/3/2011-CS-II(A) dated 20th March, 2012, the President is pleased to appoint the following Principal Private Secretaries (ad-hoc) and Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service Cadre of this Ministry to the post of Principal Private Secretary (Group 'A', Gazetted, Ministerial) of the Central Secretariat Stenographers Service cadre in the Ministry of Social Justice and Empowerment, on regular basis for the Select Year 2010 with effect from the forenoon of 20th March, 2012".

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

The 3rd January 2013

No. A-12034/07/2012-Estt.II—The President is pleased to appoint Shri V. V. S. Kharayat, an Under Secretary of CSS Cadre, as Additional Private Secretary to the Hon'ble Minister for Social Justice and Empowerment (Kumari Selja) in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 28.10.2012 on co terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi.110003, the 18th December 2012

No. A-53011/8/2012-Estt.—In supersession of this Ministry's Notification of even number, dated 5th December, 2012, the President is pleased to appoint Shri Sudhir Singh Rawat, a regular Assistant in Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Ltd. (TRIFED) as Additional Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Minority Affairs, Government of India w.e.f. 30th November, 2012. His Pay and Allowances will be fixed as per the relevant rules.

2. The appointment of Shri Sudhir Singh Rawat, Additional Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Minority Affairs is on co-terminus basis with the tenure of the Minister of State for Minority Affairs or until further orders, whichever is earlier.

3. This issues with the approval of Minister of State for Minority Affairs.

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

The 21st December 2012

No. A-19011/54/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 17/1/2012-CS.I (U) dated 21st December, 2012 regarding acceptance of voluntary retirement of Smt. Hemalata Narayanan, CSS, Under Secretary (CSL No. 6428) in the Ministry of Minority Affairs, under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972, the President is pleased to retire Smt. Hemalata Narayanan, CSS, Under Secretary from Government Service w.e.f. 21st December, 2012 (A/N).

2. This issue with the approval of Minister of Minority Affairs.

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 4th January 2013

No. A-22012/3/2006-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 28th October, 2012, the President is pleased to appoint Shri D. R. Saini, a regular Section Officer of Central Secretariat

Service (CSS) as Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Minority Affairs, in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 28th October, 2012 (F/N) on ad-hoc basis subject to the following conditions :—

- (i) The promotion is purely on 'ad hoc' basis for a period up to 31st May, 2013 or till the posts are filed up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.
- (ii) The ad hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of CSS.
- (iii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iv) The service rendered on Ad-hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- (v) The 'ad hoc' promotion of Shri Saini shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

K. D. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 31st December 2012

No. 19011/22/2011-Estt.—On attaining the age of superannuation, Dr. Manoranjan Sharma, Assistant Director (OL) in the Ministry of Tribal Affairs retires from the Government Service on superannuation with effect from the afternoon of 31.12.2012.

K. CHANDRA SEKAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 28th December 2012

No. 3(2)/2012-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Alam Singh Bisht, Deputy Director (in-situ)/personal on promotion as Deputy Director on regular basis in the Department of Electronics & Information Technology in the Pay Band : 3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- p.m. with effect from forenoon of 20.12.2012.

2. He will be on probation for a period of two years from the date of his appointment.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

No.3(1)/2011-Pers.I—The Secretary is pleased to appoint Shri Jatinder Singh, Section Officer (in-siu) on promotion as Section Officer on regular basis, Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- p. m. w.e.f. forenoon of 20.12.2012.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

The 31st December 2012

No.4(674)/2001-P-I—On attaining the age of superannuation, Shri Alam Singh Bisht, Deputy Director (Emp. Code-335), Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology retires from service on 31.12.2012.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

No.4(812)/2009-P-I—On attaining the age of superannuation, Smt. Prem Lata, Section Officer (in-situ) (Emp. Code-371), Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology retires from service on 31.12.2012.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi.110003, the 31st December 2012

No. PF/1311/NIC/2012/Admn.I—Shri Arun Kumar Singh Scientist "G" (Emp. Code : 1311), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2012 and he stands relieved of his duties from the same day.

G. N. KALIA, Dy. Director (Admn.-I)

No. PF/3362/NIC/2012/Admn.I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri Vinay Kumar, Emp. Code : 3362, from the post of Scientist-E, NIC-Hqrs., New Delhi from the forenoon of 31st December, 2012 and he stands relieved of his duties from the same day.

G. N. KALIA, Dy. Director (Admn.-I)

No. PF/0153/NIC/2012/Admn.I—Shri Jitendra Pal Singh Scientist "F" (Emp. Code : 0153), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2012 and he stands relieved of his duties from the same day.

G. N. KALIA, Dy. Director (Admn.-I)

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 30th November 2012

No.1-1/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.I (U) dated 30th October, 2012, the President is pleased to appoint the following Section Officers as Assistant Director General [Grade-I (Under Secretary) of CSS] in Department of Posts in the Pay Band PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purly on ad hoc basis upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier, with effect from the date shown against their names :—

S. No.	Name	Date of Joining
1.	Shri Sanjay Mehta	02.12.2012
2.	Shri Manoj Kumar Singh	07.11.2012

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of CSS.
- (ii) Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The service rendered on Ad-hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- (iv) The Officers who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for CSS, will have to undergo the aforesaid training as per nominations made by the Department.
- (v) The 'ad-hoc' promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

KUSHAL VASHIST, Director (Admn.)

The 24th December 2012

CORRIGENDUM

No.1-1/2011-Admn.—The date of joining of Shri Sanjay Mehta, ADG mentioned in the notification of even No. dated 30th November, 2012 (inadvertently written as 30th November, 2011) of this Department may be read as 02.11.2012 instead of 02.12.2012. The other contents of the notification remains same.

KUSHAL VASHIST, Director (Admn.)

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 31st December 2012

No.6/460/2011-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri Gireesh B. Pradhan, IAS (MH-77), Secretary, Ministry of New & Renewable Energy has retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2012.

SURESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 27th November 2012

No.17/2012 (F. No.2/4/99-Admn.)—Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012 CS.I (U) dated 30th October, 2012, (and under terms and conditions mentioned therein), the President is pleased to appoint Shri Rajesh Sharma, Section Officer of the CSS Cadre of the Ministry of Urban Development as Under Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Water Resources w.e.f. the forenoon of 20.11.2012 in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay), initially for a period up to 31.05.2013 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. Shri Rajesh Sharma is posted in CWC with effect from the same date.

L. P. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 14th December 2012

No. 519/2012 (F. No.7/1/2007-Admn.II)—Consequent upon their nomination to this Ministry for appointment as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service under seniority quota for the Select List year 2011 vide DoP&T's O. M. No. 3/4/2012-CS-II (A), Dt. 16.11.2012, the undermentioned officials presently working as PPS on ad hoc basis are hereby appointed and posted in the respective offices as Principal Private Secretary in the

Ministry of Information & Broadcasting on regular basis in PB-3, with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Select List Year in PS Grade	Date of joining as regular PS	Office where posted as regular PPS
(S/Sh./Ms.)					
1.	Rashmi Minocha	10.07.62	1999	19.11.2012 (FN)	DAVP
2.	Anil Kapoor	24.02.74	1999	16.11.2012 (FN)	DG : AIR

S. S. BEDI, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 24th December 2012

No. A-11019/1/2011-Admn.I.—Consequent upon their nomination for appointment on regular basis to the Principal Private Secretary Grade (PPS) of CSSS for Select List year 2010 (Part) and 2011 by Department of Personnel and Training vide O. M. No. 3/4/2012-CS.II(A) dated 16th November, 2012, the President is pleased to appoint the following regular Steno Grade 'A&B' (merged) (Private Secretaries) of CSSS cadre, who are officiating as Principal Private Secretary on ad hoc basis in this Ministry, to the post of Principal Private Secretary on regular basis for the Select List Year 2011 with immediate effect and until further orders :—

Sl. No.	Name	Category	Date of Birth	Place of posting
(S/Sh.)				
1.	Manjeet Kumar Chawla	General	02.05.1964	M/o UD (Secretariat)
2.	Mukesh Bali	General	16.06.1965	ADG (Trg), (Ghaziabad),
3.	Suman Taneja	General	15.01.1962	M/o UD (Secretariat)
4.	D. K. Rathore	General	15.08.1958	DG, CPWD

JITENDER KUMAR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013